

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2024—ज्येष्ठ 3, शक 1946

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2024

क्र. एफ 1(ए) 109-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 द्वारा श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एसआईएसएफ, पुलिस मुख्यालय भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 19 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित कोच्ची (केरल) भ्रमण हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति किया गया था। चूंकि अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिया गया। अतः स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 6 मई 2024

क्र. एफ 1 (ए) 196-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 जनवरी से 23 फरवरी 2024 तक, अड़तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

2521

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जारी तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. आर-1996078-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अखिल पटेल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (अपराध), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल को दिनांक 14 मई से 2 जून 2024 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में यू. के. की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री अखिल पटेल, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त (अपराध), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल का कार्य प्रभार श्री संजय कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिल पटेल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पुलिस उपायुक्त (अपराध), नगरीय पुलिस, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अखिल पटेल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अखिल पटेल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिल पटेल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्र. 1136-2012090-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर को दिनांक 15 से 30 मई 2024 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर का कार्य प्रभार श्रीमती सुनीता रावत, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8/9 मई 2024

फा. क्र. 1976-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 तथा 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु. क्र.	जिले का नाम	सारणी	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)	
“1.	बालाघाट		श्री कालू सिंह बारिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
4.	भिण्ड		श्री अहमद रजा, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
5.	भोपाल		श्री प्रशांत शुक्ला, चौबीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
7	छिन्दवाड़ा		श्री अभिषेक नागराज, पाचवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
8.	दमोह		श्री अमर गोयल, सातवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
12.	खण्डवा		श्री मनोज कुमार मण्डलोई, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
14.	ग्वालियर		श्री संजय कुमार शाही, इक्कीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
15.	हरदा		श्रीमती संगीता यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
16.	नर्मदापुरम		श्री जफर इकबाल, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
18.	जबलपुर		श्री शशि भूषण शर्मा, सातवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
20.	कटनी		श्री संजय कुमार गुप्ता (जूनि.) द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
24.	नरसिंहपुर		श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
25.	नीमच		श्री अजय कुमार टेलर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
27.	रायसेन		श्रीमती उषा गेडाम, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
28.	राजगढ़		श्री शिव बालक साहू, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
29.	रतलाम		श्री आशीष श्रीवास्तव (जूनि.), द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
32.	सतना		श्री शशिकांत वर्मा, नवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
33.	सीहोर		श्री हेमन्त जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.

(1)	(2)	(3)
34	सिवनी	श्री जयदीप सोनबरसे, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
35.	शहडोल	श्री सुभाष सोलंकी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
38.	शिवपुरी	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
41.	टीकमगढ़	श्रीमति प्रवीणा व्यास, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
42.	उज्जैन	श्री पवन कुमार पटेल, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
44.	मण्डलेश्वर	श्री मोहम्मद मूसा खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, तथा प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश.
45.	अलीराजपुर	श्री अशोक भारद्वाज, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
47.	अशोकनगर	श्री उपदेश राठौर, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश.
48.	बुरहानपुर	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
49.	डिण्डोरी	श्री मुकेश कुमार दांगी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
50.	उमरिया	श्री सुधीर कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
51.	आगर-मालवा	श्री मधुसूदन जंघेल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश. ".

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 1976-XXI-(B-I)-2024.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013 dated 11<sup>th</sup> September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20<sup>th</sup> September 2013, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial number 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 and 51 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
“1.	Balaghat	Shri Kalu Singh Bariya, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
4	Bhind	Shri Ahamed Raza, IV <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge

(1)	(2)	(3)
5.	Bhopal	Shri Prashant Shukla, XXIV <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge.
7.	Chhindwara	Shri Abhishek Nagraj, V <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge
8.	Damoh	Shri Amar Goel, VII <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge
12.	Khandwa	Shri Manoj Kumar Mandloji, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
14.	Gwalior	Shri Sanjay Kumar Shaheen, XXI <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge.
15.	Harda	Smt. Sangeeta Yadav, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
16.	Narmadapuram	Shri Zafar Iqbal, I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge
18.	Jabalpur	Shri Shashi Bhushan Sharma, VII <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge.
20.	Katni	Shri Sanjay Kumar Gupta (Jr.), II <sup>nd</sup> District & Additional Sessions Judge.
24.	Narsinghpur	Shri Manvendra Pratap Singh, III <sup>rd</sup> District & Additional Sessions Judge.
25.	Neemuch	Shri Shri Ajay Kumar Tailor, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
27.	Raisen	Smt. Usha Gedam, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
28.	Rajgarh	Shri Shiv Balak Sahu, I <sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge
29.	Ratlam	Ashish Srivastava (Jr.), II <sup>nd</sup> District & Additional Sessions Judge.
32.	Satna	Shri Shashikant Verma, IX <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge.
33.	Sehore	Shri Hemant Joshi, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
34.	Seoni	Shri Jaideep Sonbarse, IV <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge
35.	Shahdol	Shri Subhash Solanki, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
38.	Shivpuri	Shri Dharmendra Kumar Singh, IV <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge.
41.	Tikamgarh	Smt. Pravina Vyas, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.
42.	Ujjain	Shri Pawan Kumar Patel, III <sup>rd</sup> District & Additional Sessions Judge.
44.	Mandleshwar	Shri Mohammad Musa Khan, Special Judge SC/ST (P. A.) Act & I <sup>st</sup> Additional Judge to the court of I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)
45.	Alirajpur	Shri Ashok Bharadwaj, I <sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge.
47.	Ashoknagar	Shri Updesh Rathore, III <sup>rd</sup> Additional Judge to the Court of I <sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge.
48.	Burhanpur	Shri Surya Prakash Sharma, II <sup>nd</sup> District & Additional Sessions Judge.
49.	Dindori	Shri Mukesh Kumar Dangi, I <sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge.
50.	Umaria	Shri Sudhir Kumar, I <sup>st</sup> District & Additional Sessions Judge.
51.	Agar-Malwa	Shri Madhusudan Janghel, II <sup>nd</sup> District & Additional Sessions Judge.”.

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

फा. क्र. 2090-2024-इककीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विकास ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डॉ. अम्बेडकर नगर के न्यायालय के षष्ठ्म अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर का व्यवहार न्यायाधीश “कनिष्ठ खण्ड” के पद से त्यागपत्र दिनांक 7 मई 2024 के दोपहर पश्चात् से स्वीकार करता है।

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

फा. क्र. 2101/1962-इककीस-ब-(एक) 2024.—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

सारणी		
अनु. क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
“7.	उमरिया	श्री सुधीर कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया.”.

F. No. 1962-XXI-B (One)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act, namely :—

#### TABLE

S. No.	Name of District (2)	Sessions Court (3)
“7.	Umaria	Shri Sudhir Kumar, I <sup>st</sup> District and Additional Sessions Judge, Umaria.”.

फा. क्र. 1979-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु नीचे दी गई सारणी में जिले के लिए, सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् :—

## सारणी

अनु. क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
“1.	अलीराजपुर	श्री सुरेश सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.”. (दिनांक 1 मई 2024 से प्रभावशील).

F. No. 1979-XXI-B (One)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge as Special Judge for districts mentioned in the Table given below to try the offences under the said Act, namely :—

## TABLE

S. No.	Name of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
“1.	Alirajpur	Shri Suresh Singh, Principal District and Sessions Judge, Alirajpur.”. (w.e.f. 1 <sup>st</sup> May 2024).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओ. पी. रघुवंशी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

फा. क्र. 1920-इक्कीस-ब (एक)-2024.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 17(ई)-8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक, दिनांक 30 मार्च 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 3 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

## सारणी

अनुक्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	श्री सचिन कुमार घोष, अठारहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 2, भोपाल.	भोपाल	राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.
3.	श्री सुनील मालवी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर.	जबलपुर	राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, चौबीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इन्दौर.	इन्दौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र।”.

F. No. 1920-XXI-B(One)2024.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2<sup>nd</sup> March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30<sup>th</sup> March 2012, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 2, 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	Shri Sachin Kumar Ghosh, XVIII <sup>th</sup> District and Additional Sessions Judge, Special Court No. 2 Bhopal.	Bhopal	Revenue Districts Bhopal, Sehore, Raisen and Rajgarh.
3.	Shri Sunil Malvi, II <sup>nd</sup> District and Additional Sessions Judge, Special Court No. 1 Jabalpur.	Jabalpur	Revenue District Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Takamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol and Anuppur.
7.	Shri Tajinder Singh Ajmani, XXIV <sup>th</sup> District and Additional Sessions Judge Special Court No. 1 Indore.	Indore	Revenue District Dewas, Ratlam Shajapur, Ujjain, Mandsaur, Neemuch and Dhar.”.

फा. क्र. 1920-2024-इककीस-बी-(एक).—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन मामलों का विचारण करने हेतु, जिसके लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)-8-2012-इककीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च 2012 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### सारणी

अनु. क्र.	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय
(1)	(2)	(3)	(4)
“2.	श्री सचिन कुमार घोष, अठारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2 भोपाल	भोपाल

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री सुनील मालवी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	विशेष न्यायालय क्रमांक-1 जबलपुर.	जबलपुर
7.	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, चौबीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	विशेष न्यायालय क्रमांक-1 इन्दौर.	इन्दौर.”.

F. No. 1920-2024-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this departments Notification F. No. 17(E)8-2012-XXI-B (One), dated 2<sup>nd</sup> March 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 30<sup>th</sup> March 2012, to try the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) for which a declaration under sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012) has been made by the Government of Madhya Pradesh, namely :—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial numbers 2, 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No.	Name Judge	Name of Special Court Constituted u/s 3(1) of Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011	Headquarters
(1) “2.	(2) Shri Sachin Kumar Ghosh, XVIIIth District and Additional Sessions Judge, Bhopal.	(3) Special Court No. 2, Bhopal	(4) Bhopal
3	Shri Sunil Malvi, IIInd District and Additional Sessions Judge, Jabalpur	Special Court No. 1, Jabalpur.	Jabalpur
7	Shri Tajinder Singh Ajmani, XXIVth District and Additional Sessions Judge, Indore.	Special Court No. 1, Indore.	Indore.”.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

पंजी क्र. 1999-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण कुमार खराड़ी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर का स्थानान्तरण प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्योपुर के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव।

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 मई 2024

#### संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ 1-4-23-रा.स.-यू.ए. 1-582.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्र. 16 सन् 2009) की धारा 11 की उपधारा (2) के तहत जारी इस कार्यालय की अधिसूचना क्र. एफ-1-4-23-रा.स.-यू.ए.1-157, दिनांक 31 जनवरी 2024 के द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु पशु चिकित्सा के क्षेत्र में प्रछात तीन व्यक्तियों के नाम का पैनल अनुशंसित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। उक्त समिति में प्रो. सुनील कुमार, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल (कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित सदस्य एवं समिति अध्यक्ष), श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल (राज्य सरकार द्वारा नामांकित सदस्य) एवं डॉ. ए. के. मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली (विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा नामांकित सदस्य) शामिल हैं।

2. कुलाधिपतिजी की ओर से नामांकित सदस्य एवं समिति के अध्यक्ष प्रो. सुनील कुमार, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र प्रस्तुत करने के कारण कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. अरविन्द कुमार शुक्ला, कुलपति, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को उनकी ओर से समिति का सदस्य एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

3. श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय, भोपाल एवं डॉ. ए. के. मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, नई दिल्ली समिति में पूर्ववत् सदस्य रहेंगे।

4. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी।

5. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू.ए.1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी।

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव।

## कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2024

क्र. 407-एस.डब्ल्यू.-2024.—जनसुविधा की दृष्टि से जिला जबलपुर के थानों/चौकियों के परिसीमन का पुनर्निर्धारण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खण्ड-एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक सक्सेना, जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, सूची में दर्शाएं क्षेत्रों/ग्रामों को उनके सम्मुख दर्शाएं अनुसार थानों/चौकियों में सम्मिलित करते हुए इनकी सीमाओं का निर्धारण करता हूँ :—

क्र.	क्षेत्र / ग्राम	वर्तमान थाना	प्रस्तावित चौकी / थाना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया	रांझी	अधारताल
2	ग्राम बसा	भेड़ाघाट	माढ़ोताल
3	ग्राम कंतोरा, सिमरिया, रानीताल, हटेपुर, नीची, उजरोड़, जुगतरैया, भौतिया एवं आरछा।	भेड़ाघाट	नुनसर चौकी थाना पाटन
4	ग्राम नीची	बरगी	चरगवां
5	ग्राम दियाखेडा	बरगी	

### तिलवारा

6	ग्राम पंचायत चिरापौडी	चरगवां	बरगी
7	ग्राम जैतपुरी, ग्राम उमरिया	बरेला	गोराबाजार
8	ग्राम लोहकरी, ग्राम महगवां	बरेला	खमरिया
9	ग्राम पंचायत सिमरिया	खितौला	सिहोरा
10	ग्राम पंचायत कुसमी, मटवारा, नीमखेडा	बेलखेड़ा	शहपुरा
11	ग्राम पौड़ी खुर्द, ग्राम पौड़ी कला, ग्राम माला खुर्द	बेलखेड़ा	पाटन
12	ग्राम सिमरिया, ग्राम पंचायत हरदुआ (पौड़ी)	पाटन	शहपुरा
13	ग्राम पंचायत जमुनिया ज्वाप	पाटन	भेड़ाघाट
14	ग्राम कैथरा, ग्राम करारी, ग्राम नाउखेडा, ग्राम मनकवारा।	पाटन	चौकी बेलखाड़ा थाना कटंगी
15	ग्राम लुहारी, बिनैकी, बेनीखेडा, टिमरी, चुहटा सोनतलाई, आगासौदे।	माढ़ोताल	चौकी नुनसर थाना पाटन
16	नेमा हार्ट हॉस्पिटल से चमन कोल्ड स्टोरेज तक का क्षेत्र।	माढ़ोताल	विजयनगर
17	समन्वय चौक, मरियम चौक, सृजन चौक, संपूर्ण कोबरा, कैन्टीन एरिया, सेंट एलॉयसिस स्कूल / कॉलेज से वाय. एम. सी. ए. तिराहे तक।	गोराबाजार	केण्ट
18	जीरो डिग्री प्वार्इट	थाना लार्डगंज, थाना भेड़ाघाट, थाना माढ़ोताल, थाना विजयनगर में सम्मिलित रूप से होने के कारण।	चौकी यादव कॉलोनी, थाना लार्डगंज

दीपक सक्सेना, जिला मजिस्ट्रेट।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 0003-अ-82-2023-24

सीहोर, दिनांक 5 मार्च 2024

**[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  
(कं 30 सन् 2013)]**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर ग्राम गोपालपुर, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर म0प्र0 के निर्माण तक पहुँचने हेतु मे निजी भूमि पर मार्ग निर्माण कार्य हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे कमांक वार विवरण निम्न अनुसूची मे उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुर्ववास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (2)								
शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर ग्राम गोपालपुर, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर म0प्र0 के भवन निर्माण तक पहुँचने हेतु मार्ग निर्माण कार्य हेतु								
सं. क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि का रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	श्री कचरुलाल आ० ढोकलसिंह, जाति कलोता	44	1.068	0.000	1.068	0.101	0.000	0.101
2.	श्री रघुवीरसिंह आ० ढोकलसिंह, जाति कलोता	43 / 1 / 1	3.869	0.000	3.869	0.303	0.000	0.303
			4.937	0.000	4.937	0.404	0.000	0.404

(1) भूमि का नवशा (प्तान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संशोधन विभाग सीहोर के कार्यालय मे किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय आंशिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

(3) समुचित सरकार की वेबसाइट की वेबसाइट [WWW.sehore.nic.in](http://WWW.sehore.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

पुर्ववास और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

सीप अन्वर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम गोपालपुर, तहसील भैरुंदा मे निजी भूमि पर शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर ग्राम गोपालपुर, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर म0प्र0 भवन निर्माण तक पहुँचने हेतु मार्ग निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

क्र. 497—भू—अर्जन—2024

सीहोर, दिनांक 16 मई 2024

(प्रारूप धारा –19) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का  
अधिकार अधिनियम 2013

प्रकरण क्रमांक 001/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

भूमि का वर्णन

- (क) जिला — सीहोर
- (ख) तहसील — श्यामपुर
- (ग) ग्राम — मगरदीकलां
- (घ) क्षेत्रफल — 4.170 हें.

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा हैं में	अर्जित रकबा हैंमें	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	जान कुंवर बेवा भंवरलाल सतपाल सोलंकी जगपाल सोलंकी आ भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	59/2/1/1	0.831	0.470	
		59/2/2/1	0.835	0.360	
		61/2/1	1.265	0.340	
2	शिवपालसिंह पुत्र रधुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश	61/2/2	3.130	0.870	
3	प्रेम सिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58/1/1	2.097	1.360	
4	हरपाल सिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58/2/1	1.392	0.160	
		59/1/1	0.700	0.550	
5	कृष्णकुंवर बाई पली देवराज सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59/1/2/1	1.142	0.060	
	कुल योग :-	8	11.392	4.170	

- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू—अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 493—भू—अर्जन—2024

सीहोर, दिनांक 14 मई 2024

प्रकरण क्रमांक 03 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित मकानों एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### -: अनुसूची - 1 :-

#### मकानों का वर्णन

जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	श्यामपुर/गवा	मकान - 144.47 वर्ग मी.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से इब्र प्रभावित हेतु भू—अर्जन

### -: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	रक्का (वर्ग मी.)	भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम	रिमार्क	
		2	3	4	5	6	7	8
1	गंगाराम पिता गवाजी जाति लोड़ा पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	103/1	24	कच्चा मकान	41.30	पप्पू पिता गंगाराम जाति लोड़ा	भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।	
	योग:-	1		कच्चा पशु शेड छत पन्नी	57.95		99.25	

2	हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	445/6	25	कच्चा पशु शेड छत पन्नी	45.22	फूलसिंह पिता फतेसिंह जाति लोड़ा	भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
	योग--:	1			45.22		
	कुल योग --:				144.47		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (व्यावरा), मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 15 मई 2024

## -: अनुसूची :-

कमांक 3998 /भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 01/आ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-लसुडलिया मीना के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, व्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

## -: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, लसुडलिया मीना

स.क्र.	विवरण ( 2 )	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा ( 3 )	प्रभावित रकबा ( 4 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित लसुडलिया मीना की भूमि की आवश्यकता।	82.800	39.158
कुल योग :		82.800	39.158

## -: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम 2	सर्व नंबर 3	कुल रकबा (हेक्टर में) 4	प्रभावित रकबा (हेक्टर में) 5
1	कमल सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/3	0.063	0.012
		कुल 1 किता	0.063	0.012
2	कुमेर सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/8	0.110	0.021
		कुल 1 किता	0.110	0.021
3	गजराज सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/1	0.090	0.017
		कुल 1 किता	0.090	0.017
4	गुलाबसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/6	0.091	0.017
		कुल 1 किता	0.091	0.017

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
5	दरियाव सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/7	0.100	0.019
		कुल 1 किता	0.100	0.019
6	देवीसिंह, कल्याण सिंह, झूंगरसिंह, विशन सिंह पिता सौभाग सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/9	0.632	0.121
		कुल 1 किता	0.632	0.121
7	मोहन सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/2	0.070	0.013
		कुल 1 किता	0.070	0.013
8	सोनाथ सिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190/4/5	0.109	0.021
		कुल 1 किता	0.109	0.021
9	बृजमोहन पिता प्रेमनारायण जाति भीना पता लसुडलिया भीना, सुठालिया, राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3	0.531	0.020
		कुल 1 किता	0.531	0.020
10	महेन्द्रसिंह पिता प्रेमनारायण जाति भीना पता लसुडलिया भीना, सुठालिया, राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	4/3	1.527	0.010
		कुल 1 किता	1.527	0.010
11	राज कुमार पिता प्रेमनारायण जाति भीना पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	4/4	1.553	0.010
		कुल 1 किता	1.553	0.010
12	प्रेमनारायण पिता हजारीलाल जाति लौढ़ पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	5 7/1	0.139 1.132	0.139 0.020
		कुल 2 किता	1.271	0.159
13	ओमप्रकाश पिता मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/1	0.207	0.004
		कुल 1 किता	0.207	0.004
14	महेन्द्र कुमार पिता मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी टोडी राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/2	0.207	0.004
		कुल 1 किता	0.207	0.004
15	देवकीबल्लभ पिता मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/3 9/2 197/2 206	2.343 0.832 0.122 0.126	0.060 0.060 0.080 0.085
		कुल 4 किता	3.423	0.285
16	अमितकुमार पिता रामकुमार, सुधादेवी बेवा रामकुमार जाति ब्राह्मण पता निवासी टोडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	9/1 10	0.052 0.443	0.010 0.040
		कुल 2 किता	0.495	0.050

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
17	प्रेमबाई पुत्री हजारीलाल जाति लोढ़ा पता नि.ग्राम नादनपुर राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/2 12	0.954 0.557	0.010 0.010
		कुल 2 किता	1.511	0.020
18	समंदरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/1 214/1/2	0.506 0.274	0.025 0.247
		कुल 2 किता	0.780	0.272
19	बलवीरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2 214/1/3	1.177 0.274	0.015 0.247
		कुल 2 किता	1.451	0.262
20	अन्तरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/3 214/1/5	1.176 0.274	0.060 0.274
		कुल 2 किता	1.450	0.334
21	सूरजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/4 214/1/6	1.093 0.274	0.025 0.274
		कुल 2 किता	1.367	0.299
22	मंगलसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/5 67 214/1/1 166/1/1/2	0.810 0.367 0.274 0.253	0.025 0.140 0.247 0.040
		कुल 4 किता	1.704	0.452
23	उमराव कंवर पति दशरथसिंह जाति राजपूत पता निवासी टोड़ी राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/1/4 69	1.216 0.063	0.145 0.063
		कुल 2 किता	1.279	0.208
24	सोनूकुंवर पति मूलिंसह जाति राजपूत पता निवासी टोड़ी राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/1/7 71/1	0.510 0.215	0.050 0.215
		कुल 2 किता	0.725	0.265
25	राजकुमारी पति बलवीरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/1/6	0.555	0.055
		कुल 1 किता	0.555	0.055
26	हनुमतसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम टोड़ी राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/2/1 71/2/1	1.264	0.490
		कुल 2 किता	1.264	0.490
27	सरजनसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	68/2/2 71/2/2	1.265	0.100
		कुल 2 किता	1.265	0.100

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
	मोती पिता हरल्या हि. 42/100 भाग, हजारी पिता हरल्या हि. 52/100 भाग, कल्याणसिंह पिता सोभागसिंह हि. 6/100 भाग, जाति राजपूत पता लसुडलिया मीना सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	216	0.253	0.190
		कुल 1 किता	<b>0.253</b>	<b>0.190</b>
29	कमलाबाई पत्नी प्रेमनारायण जाति मीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	93/3	0.379	0.092
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.092</b>
30	राजेन्द्रसिंह पिता प्रेमनारायण हि. 1/4 भाग, कहैयालाल पिता प्रेमनारायण हि. 1/4 भाग, गजराजसिंह पिता प्रेमनारायण हि. 1/4 भाग, प्रेमबाई बेवा प्रेमनारायण हि. 1/4 भाग, सर्व जाति मीना पता नादनपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	120/1	0.240	0.210
		कुल 1 किता	<b>0.240</b>	<b>0.210</b>
31	रघुवीरसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता निवासी नादनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	121/1 122/2	0.320 0.518	0.195 0.030
		कुल 2 किता	<b>0.838</b>	<b>0.225</b>
32	रामस्वरूप पिता मांगीलाल जाति मीना पता निवासी नादनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	121/2 122/3	0.194 0.239	0.090 0.170
		कुल 2 किता	<b>0.433</b>	<b>0.260</b>
33	ब्रजमोहन पिता मांगीलाल जाति मीना पता निवासी नादनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	121/3 122/4	0.194 0.239	0.194 0.170
		कुल 2 किता	<b>0.433</b>	<b>0.364</b>
34	लाखनसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता निवासी नादनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	122/1 124	0.269 0.569	0.010 0.100
		कुल 2 किता	<b>0.838</b>	<b>0.110</b>
35	भगवतीबाई पति बापूलाल जाति मीना पता नि. नौदनरपुरा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	123/1	0.259	0.120
		कुल 1 किता	<b>0.259</b>	<b>0.120</b>
36	उर्मिलाबाई बेवा दशरथसिंह हि. 1/4 भाग, रामसेवक पिता दशरथसिंह हि. 1/4 भाग, विनोद पिता दशरथसिंह हि. 1/4 भाग, दिलीप पिता दशरथसिंह हि. 1/4 भाग जाति मीना नादनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	123/2	0.259	0.165
		कुल 1 किता	<b>0.259</b>	<b>0.165</b>
37	शिवराज पिता बापूलाल हि. 1/2 भाग, लेखराम पिता बापूलाल हि. 1/2 भाग जाति मीना पता निवासी नादनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	123/3 123/4 135/1	0.051 0.051 0.101	0.030 0.020 0.040
		कुल 3 किता	<b>0.203</b>	<b>0.090</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
38	प्रेमसिंह पिता मेहताबसिंह हि. 1/3 भाग, बापूलाल पिता मेहताबसिंह हि. 1/3 भाग, हरिसिंह पिता मेहताबसिंह हि. 1/3 भाग, जाति सौधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134	0.266	0.067
		145	5.425	5.030
		241	10.762	9.950
		236/8	2.023	1.416
		236/9	2.023	0.620
		148	0.329	0.150
		कुल 6 किता	20.828	17.233
39	सावित्रीबाई पति राजनसिंह जाति भीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	120/2	0.241	0.130
		कुल 1 किता	0.241	0.130
40	रमेश सुरेश पिता रामसिंह मिश्रीबाई बेवा रामसिंह सवित्रीबाई इकलेशबाई विनिताबाई निर्दोषबाई पुत्रिया रामसिंह हि. 1/3 भाग, बापूलाल पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग, उर्मिलाबाई बेवा दशरथ हि. 1/3 भाग, जाति भीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	135/2	0.304	0.122
		कुल 1 किता	0.304	0.122
41	हरिसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/5 भाग, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ हि. 1/5 भाग, गुलाबसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/5 भाग, लीलाबाई पुत्री जगन्नाथ हि. 1/5 भाग, अन्तराबाई पुत्री जगन्नाथ हि. 1/5 भाग, जाति देशवाली पता निवासी नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	138	0.708	0.400
		142	0.240	0.035
		144	0.506	0.354
		139	0.253	0.060
		कुल 4 किता	1.707	0.849
42	गुलाबसिंह पिता जगन्नाथ जाति देशवाली पता निवासी नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/1	0.287	0.287
		कुल 1 किता	0.287	0.287
43	हरिसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग, जाति देशवाली पता निवासी नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/2	0.573	0.458
		कुल 1 किता	0.573	0.458
44	रामचरण पिता धीसालाल जाति भीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/1	0.778	0.311
		कुल 1 किता	0.778	0.311
45	बापूलाल पिता धीसालाल जाति भीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	154/3	2.086	0.240
		163	0.582	0.040
		164/2	0.196	0.090
		कुल 3 किता	2.864	0.370
46	रमेश पिता मंशा जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	159/2	0.700	0.400
		कुल 1 किता	0.700	0.400

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हिकटयर में)	प्रभावित रकवा (हिकटयर में)
1	2	3	4	5
47	गोविन्दसिंह पिता कालू हि. 1/2 भाग, नारायणसिंह पिता खुसीलाल हि. 1/2 भाग, जाति मीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	160/1	0.324	0.259
		161	0.443	0.126
		162/1	0.178	0.025
		कुल 3 किटा	<b>0.945</b>	<b>0.410</b>
48	बहादुरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	160/2	0.384	0.307
		162/2	0.126	0.025
		214/1/4	0.274	0.247
		कुल 3 किटा	<b>0.784</b>	<b>0.579</b>
49	प्रेमनारायण पिता भबरलाल हि. 1/2 भाग, हरिनारायण पिता भबरलाल हि. 1/2 भाग, जाति मीना पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	171	0.316	0.253
		173	<b>0.784</b>	0.390
		236/3	0.240	0.240
		170	2.428	0.180
		कुल 4 किटा	<b>3.768</b>	<b>1.063</b>
50	भरजी पिता जगन्नाथ जाति भोई पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	181/1	0.019	0.019
		236/4/4	0.046	0.046
		236/6/2	0.016	0.016
		236/4/2	0.046	0.046
		236/11/4	0.056	0.056
		179/2	0.213	0.020
		189/4		0.253
		कुल 7 किटा	<b>0.396</b>	<b>0.456</b>
51	गुलाबबाई बेवा भंवरलाल उर्फ भंवरिया जाति भोई पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	181/2	0.018	0.018
		236/4/6	0.018	0.018
		236/11/6	0.100	0.100
		179/3	0.098	0.010
		कुल 4 किटा	<b>0.234</b>	<b>0.146</b>
52	गंगाराम पिता जगन्नाथ जाति भोई पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	179/4	0.091	0.010
		181/3	0.026	0.026
		236/11/3	0.071	0.071
		236/4/3	0.046	0.046
		कुल 4 किटा	<b>0.234</b>	<b>0.153</b>
53	देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाति भोई पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	181/4	0.063	0.063
		188/2	0.259	0.020
		231/6	0.015	0.008
		236/11/2	0.033	0.033
		कुल 4 किटा	<b>0.370</b>	<b>0.124</b>
54	प्रभू पिता रामसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	182/2	0.060	0.030
		182/3	0.235	0.080
		183/6		
		182/5	0.100	0.100
		217/1	0.342	0.312
		कुल 4 किटा	<b>0.737</b>	<b>0.522</b>

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
55	पण्डिलाल पिता मदनलाल हि. 292 / 1668 भाग, शेतानसिंह पिता मदनलाल हि. 522 / 1668 भाग, लक्ष्मीनारायण पिता मदनलाल हि. 427 / 1668 भाग, गीताबाई बेवा मदनलाल हि. 427 / 1668 भाग, जाति चमार पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	182/4 183/7	0.165	0.112
		182/1		0.050
	कुल 3 किता		<b>0.165</b>	<b>0.162</b>
56	भूरियाबाई पति अमृत हि. 1/2 भाग, अमृत पिता मोती हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/3	1.265	0.195
		कुल 1 किता		<b>1.265</b>
57	हजारी पिता हरस्या हि. 1/2 भाग, काशीबाई पति हजारी हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/4	1.265	0.130
		कुल 1 किता		<b>1.265</b>
58	प्रभू पिता रामसिंह हि. 1/2 भाग, विपताबाई पति प्रभू हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/6	1.265	0.430
		कुल 1 किता		<b>1.265</b>
59	नारानीबाई बेवा बंशीलाल हि. 1/4 भाग, सर्जनसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/4 भाग, गोविंदसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/4 भाग, हरिसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/4 भाग, जाति मीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/2/1	1.253	0.605
		236/12	1.151	1.151
	कुल 2 किता		<b>2.404</b>	<b>1.756</b>
60	अमृतलाल पिता मोतीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/2/2	0.506	0.155
		कुल 1 किता		<b>0.506</b>
61	रामबाबू पिता रामप्रसाद हि. 1/4 भाग, कमलेश पिता रामप्रसाद हि. 1/4 भाग, लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद हि. 1/4 भाग, गीताबाई बेवा रामप्रसाद हि. 1/4 भाग, जाति भोई लसुडलिया मीना सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/5	0.016	0.008
		236/4/5	0.046	0.046
		236/11/5	0.056	0.056
		236/6/3	0.016	0.016
		कुल 4 किता		<b>0.134</b>
62	रामचरण पिता बटटूलाल जाति भोई पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	188/1	0.260	0.026
		236/6/1	0.031	0.031
		231/1/1	0.038	0.010
		कुल 3 किता		<b>0.329</b>
63	गजराजसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/1	0.044	0.044
		200/1	0.015	0.015
	कुल 2 किता		<b>0.059</b>	<b>0.059</b>
64	मोहनसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/2	0.034	0.030
		200/2	0.015	0.015
	कुल 2 किता		<b>0.049</b>	<b>0.045</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
65	कमलसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/3	0.024	0.024
		200/3	0.015	0.015
		कुल 2 किता	0.039	0.039
66	सोनाथसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/4	0.054	0.054
		200/4	0.015	0.015
		कुल 2 किता	0.069	0.069
67	गुलाबसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/5	0.043	0.043
		200/5	0.016	0.016
		कुल 2 किता	0.059	0.059
68	दरियावसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/6	0.043	0.043
		200/6	0.015	0.015
		कुल 2 किता	0.058	0.058
69	कुमेरसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	199/7	0.062	0.062
		200/7	0.016	0.016
		कुल 2 किता	0.078	0.078
70	देवीसिंह कल्याणसिंह झूंगरसिंह बिशनसिंह पिता सौभागसिंह जाति राजपूत पता लसुडलिया मीना व्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	200/8	0.412	0.412
		कुल 1 किता	0.412	0.412
71	नारायणीबाई बेवा बंशीलाल हि. 1/4 भाग, सर्जनसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/4 भाग, गोविन्दसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/4 भाग, हरिसिंह पिता बंशीलाल हि. 1/4 भाग, सर्वे जाति मीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	191/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
72	भारतसिंह पिता भंवरलाल हि. 1/4 भाग, सरजनसिंह पिता भंवरलाल हि. 1/4 भाग, मोकमसिंह पिता भंवरलाल हि. 1/4 भाग, राजनसिंह पिता भंवरलाल हि. 1/4 भाग, जाति राजपूत पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	191/2	0.569	0.530
		205	0.126	0.042
		209	0.443	0.130
		कुल 3 किता	1.138	0.702
73	श्यामसुन्दर पिता मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	197/1	0.207	0.020
		कुल 1 किता	0.207	0.020
74	गजराजसिंह मोहनसिंह कमलसिंह सौनाथसिंह गुलाबसिंह दरियावसिंह कुमेरसिंह पिता चैनसिंह मु. पानकुंवर बेवा चैनसिंह हि. 1/2 पैसे सौभागसिंह पिता गोरखनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	194/2	0.534	0.300
		कुल 1 किता	0.534	0.300

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
75	भारतसिंह सरजनसिंह मोकमसिंह राजनसिंह पिता भवरलाल हि. 20/100 भाग, नारायणसिंह केशरसिंह पिता पर्वतसिंह हि. 40/100 भाग, रामनाथसिंह करनसिंह दशरथसिंह छोटेसिंह पिता बापूसिंह केशरबाई बेवा बापूसिंह हि. 20/100 भाग, विकमसिंह लाखनसिंह पिता रूपसिंह हि. 20/100 भाग, सर्वे जाति राजपूत पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210	0.595	0.565
		218	0.278	0.020
		194/1	1.400	1.120
		कुल 3 किता	<b>2.273</b>	<b>1.705</b>
76	हेमराज पिता धीसालाल जाति मीना पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/1	0.296	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.296</b>	<b>0.050</b>
77	बापूलाल पिता धीसालाल जाति मीना पता लसुडलिया मीना व्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/2	0.089	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.089</b>	<b>0.050</b>
78	रामकैलाश पिता धीसालाल जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/3	0.089	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.089</b>	<b>0.050</b>
79	नारायणसिंह पिता धीसालाल जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/4	0.101	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.101</b>	<b>0.050</b>
80	रघुवर पिता धीसालाल जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/5	0.084	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.084</b>	<b>0.050</b>
81	केशरबाई बेवा धीसालाल जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/6	0.320	0.125
		कुल 1 किता	<b>0.320</b>	<b>0.125</b>
82	नारानीबाई बेवा मांगीलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	119/2/8	0.359	0.090
		कुल 1 किता	<b>0.359</b>	<b>0.090</b>
83	जगदीश पिता प्रेमसिंह जाति सौधिया पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	233/1	0.158	0.120
		कुल 1 किता	<b>0.158</b>	<b>0.120</b>
84	कमलसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	233/2	0.079	0.060
		कुल 1 किता	<b>0.079</b>	<b>0.060</b>
85	दिनेशकुमार पिता बापूलाल जाति सौधिया पता लसुडलिया मीना सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	233/3	0.079	0.060
		कुल 1 किता	<b>0.079</b>	<b>0.060</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
86	किशोर पिता बहू जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	236/10	0.076	0.076
		236/7	0.051	0.051
			कुल 2 किता	0.127
87	भवरलाल पिता गोपाल जाति सौधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	236/2	0.089	0.027
			कुल 1 किता	0.089
88	इन्द्रसिंह पिता बालमुकुंद जाति मीना पता नि. नांदनपूरा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	165	0.089	0.030
			कुल 1 किता	0.089
89	शिवनारायण पिता मदनलाल जाति मीना पता लसुडलिया मीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	166/1/1/1	1.277	0.450
			कुल 1 किता	1.277
90	विसनसिंह पिता सौभागसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	166/1/2	0.379	0.060
			कुल 1 किता	0.379
91	अमरसिंह पिता दयाराम हि. 1/3 भाग, जगदीश पिता दयाराम हि. 1/3 भाग, नवलसिंह पिता दयाराम हि. 1/3 भाग, जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	179/1	0.581	0.050
231/1/2		0.038	0.020	
236/4/1		0.266	0.266	
236/5		0.063	0.063	
236/11/1		0.190	0.190	
कुल 6 किता		1.138	0.589	
92	पप्पूलाल पिता मदन हि. 1/4 भाग, सेतानसिंह पिता मदन हि. 1/4 भाग, लक्ष्मीनारायण पिता मदन हि. 1/4 भाग, गीताबाई बेवा मदन हि. 1/4 भाग, जाति चमार पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/5	1.265	0.865
			कुल 3 किता	1.265
	कुल योग :-	कुल 171 किता	82.800	39.158

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

## —: अनुसूची :—

क्रमांक ५८७० /भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक ००६२/अ-४२/२०२३-२५ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक १ में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-सेमलापार के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची २ में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र ३० सन् २०१३) की धारा-११ के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची २ की भूमि की अनुसूची १ में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, व्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा ६(२) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा ६(२) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

## —: अनुसूची ( १ ) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, सेमलापार

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
( १ )	( २ )	( ३ )	( ४ )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-सेमलापार की शेष भूमि की आवश्यकता।	161.200	82.934
	कुल योग :	161.200	82.934

## —: अनुसूची ( २ ) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	कॅवरलाल पिता बापूलाल जाति सोध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68/4/5	0.278	0.185
		68/4/3	0.253	0.010
		कुल २ किता	0.531	0.195
2	नारायणसिंह पिता बापूलाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/3/4	0.242	0.242
		68/4/2	0.253	0.060
		68/4/4	0.278	0.080
		कुल ३ किता	0.773	0.382
3	देवीसिंह पिता बापूलाल जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/3/5	0.724	0.644
		68/4/1	0.253	0.100
		68/4/6	0.556	0.080
		कुल ३ किता	1.533	0.824

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकमा (हेक्टर में)	प्रभावित रकमा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
4	माँगीलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/3/6	0.242	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.242</b>	<b>0.050</b>
5	किशनलाल पिता नाथूलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/2/2	0.484	0.434
		कुल 1 किता	<b>0.484</b>	<b>0.434</b>
6	इन्दरसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	4/2/2	1.562	0.040
		3/2/3	0.483	0.300
		कुल 2 किता	<b>2.045</b>	<b>0.340</b>
7	लक्ष्मीनारायण पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/1/2/1	0.240	0.100
		71/2/1/1	0.600	0.080
		कुल 2 किता	<b>0.840</b>	<b>0.180</b>
8	अनारसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/1/2/2	0.240	0.110
		22/2/2/2	0.190	0.020
		71/2/1/2	0.601	0.130
		कुल 3 किता	<b>1.031</b>	<b>0.260</b>
9	हिन्दुसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/1/2/3	0.240	0.090
		71/2/1/3	0.601	0.110
		332/1/5	2.023	1.345
		कुल 3 किता	<b>2.864</b>	<b>1.545</b>
10	शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/1/2/4	0.241	0.150
		71/2/1/4	0.601	0.030
		कुल 2 किता	<b>0.842</b>	<b>0.180</b>
11	नारायणसिंह पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	3/1/1	0.961	0.831
		22/2/1	0.696	0.496
		कुल 2 किता	<b>1.657</b>	<b>1.327</b>
12	रामसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/1	0.568	0.548
		कुल 1 किता	<b>0.568</b>	<b>0.548</b>
13	बापूलाल पिता कालू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/5/1	0.316	0.316
		कुल 1 किता	<b>0.316</b>	<b>0.316</b>
14	शिवनारायण पिता कालू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/5/2	0.317	0.207
		कुल 1 किता	<b>0.317</b>	<b>0.207</b>
15	बीरम पिता फतेसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/4	0.370	0.225
		कुल 1 किता	<b>0.370</b>	<b>0.225</b>
16	शान्तीबाई पति रोडजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/2	1.018	0.818
		कुल 1 किता	<b>1.018</b>	<b>0.818</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रमाणित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
17	शिवनारायण पिता मेहताव जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/7	1.018	0.917
		कुल 1 किता	1.018	0.917
18	शिवसिंह पिता मेहताव जाति सौध्या पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	186/1	0.784	0.100
		कुल 1 किता	0.784	0.100
19	हिन्दुसिंह पिता देवीसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/1 12/2 37/1/1 187/2/1	3.237 0.375 0.599 0.379	0.570 0.050 0.389 0.379
		कुल 4 किता	4.590	1.388
20	भंवरलाल पिता भेरसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	6/1	0.234	0.100
		कुल 1 किता	0.234	0.100
21	पवन पिता शिवनारायण जाति सौध्या पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	12/1 37/1/2 39/1/1 40/1/1 187/2/2	0.375 0.598 0.935 0.186 0.379	0.110 0.459 0.040 0.100 0.379
		कुल 5 किता	2.473	1.088
22	चरणसिंह पिता रामसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/4 37/1/6 190/1/4 228/10 23/4 8/1/6 323 332/1/2/1	1.821 1.796 0.156 3.035 2.398 0.910 0.531 0.422	0.961 1.396 0.156 2.326 0.070 0.860 0.050 0.422
		कुल 8 किता	11.069	6.241
23	सौरमबाई पति दरयावसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/3/3 11/1/3 25/2/3 40/3/3 311/3 311/2 332/7	1.733 0.759 0.421 0.186 0.144 0.190 0.847	1.383 0.709 0.361 0.146 0.050 0.025 0.697
		कुल 7 किता	4.280	3.371
24	कालू पिता रामलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8/2	5.198	3.198
		कुल 1 किता	5.198	3.198
25	कालू पिता रामलाल हि. 1/2 भाग, सूरमबाई बेवा रामलाल हि. 1/2 भाग, जाति सौध्या पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	37/2	5.387	3.597
		कुल 1 किता	5.387	3.597

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
26	राजेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	37/3/2	0.900	0.760
		कुल 1 किता	<b>0.900</b>	<b>0.760</b>
27	हरिसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	22/1 22/2/4 71/2/2 6/2	1.278 0.127 0.126 0.234	0.560 0.030 0.100 0.025
		कुल 4 किता	<b>1.765</b>	<b>0.715</b>
28	सर्वेनसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम कांकरियागुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	71/6/1/2	0.379	0.359
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.359</b>
29	पर्वतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम कांकरियागुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	71/6/2	0.379	0.349
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.349</b>
30	अमरसिंह पिता धुलजी नोरंगबाई पति धुलजी जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	71/6/1/1	0.507	0.126
		कुल 1 किता	<b>0.507</b>	<b>0.126</b>
31	ननू पिता पूराजी जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/5	0.108	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.108</b>	<b>0.050</b>
32	भेरुसिंह पिता कनीराम जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/2/1	0.254	0.040
		कुल 1 किता	<b>0.254</b>	<b>0.040</b>
33	दरियावसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/2/2	0.632	0.040
		कुल 1 किता	<b>0.632</b>	<b>0.040</b>
34	हरिसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया पता तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/2/3/1	0.379	0.085
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.085</b>
35	नाबालिक नितेश पिता हेमराज सरपरस्त पिता हेमराज जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/2/3/2	0.253	0.050
		कुल 1 किता	<b>0.253</b>	<b>0.050</b>
36	हरिसिंह पिता पूराजी जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	21/1	1.623	0.190
		कुल 1 किता	<b>1.623</b>	<b>0.190</b>
37	बापू पिता पूरजी जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21/3 24/1	1.370 0.173	0.050 0.120
		कुल 2 किता	<b>1.543</b>	<b>0.170</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
38	रमेश पिता कालू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7/5/3	0.317	0.167
		कुल 1 किता	<b>0.317</b>	<b>0.167</b>
39	कुमेरसिंह पिता नारूजी जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/6/1/1 273/1/1	0.099 0.121	0.045 0.030
		कुल 2 किता	<b>0.220</b>	<b>0.075</b>
40	बनेसिंह पिता नारू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	273/1/2 7/6/1/2	0.120 0.099	0.080 0.045
		कुल 2 किता	<b>0.219</b>	<b>0.125</b>
41	हरिसिंह पिता नारूजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	274/1 7/6/1/3	0.278 0.099	0.060 0.045
		कुल 2 किता	<b>0.377</b>	<b>0.105</b>
42	धीरपसिंह पिता नारूजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/6/2 273/2 274/2	0.297 0.240 0.227	0.150 0.080 0.030
		कुल 3 किता	<b>0.764</b>	<b>0.260</b>
43	नारायणसिंह विजयसिंह रामकैलाश पिता फूलसिंह भैवरीबाई कमलबाई लीलाबाई सशीलाबाई द्रोपतीबाई पुत्रियाँ फूलसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	7/3	0.379	0.220
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.220</b>
44	नारायणसिंह पिता मेहताबसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/3/1 11/1/1 40/3/1 25/2/1 332/5	1.733 0.759 0.185 0.422 1.176	1.213 0.465 0.155 0.422 0.936
		कुल 5 किता	<b>4.275</b>	<b>3.191</b>
45	किशनलाल पिता मेहताबसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/3/2 40/3/2 309/1 25/2/2	1.733 0.186 0.379 0.422	1.453 0.145 0.090 0.422
		कुल 4 किता	<b>2.720</b>	<b>2.110</b>
46	संतोषबाई पति भारतसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/1/7 11/2 37/1/5 187/1/2 190/1/3 332/1/2/2	0.910 0.201 0.898 1.011 0.078 0.211	0.861 0.076 0.678 0.380 0.078 0.211
		कुल 6 किता	<b>3.309</b>	<b>2.284</b>
47	कमलसिंह पिता देवीसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	37/1/3 187/2/3	0.598 0.380	0.519 0.329
		कुल 2 किता	<b>0.978</b>	<b>0.848</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
48	विष्णु पिता करणसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	190/1/2	0.078	0.078
		242/1	0.644	0.220
		228/6	0.379	0.379
		320/2/2/2	0.306	0.306
		320/4/2	0.958	0.758
		322/3/1	0.280	0.280
		350/320/4	0.164	0.164
		332/1/2/3	0.211	0.211
		कुल 8 किता	3.020	2.396
49	भूपेन्द्र पिता विष्णु जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	37/1/4	0.898	0.678
		40/1/2	0.185	0.100
		कुल 2 किता	1.083	0.778
50	मोहनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	23/3	2.040	0.450
		37/3/1	0.900	0.700
		कुल 2 किता	2.940	1.150
51	रामनिवास पिता किशनलाल जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	23/5	2.040	0.120
		37/3/4	0.900	0.600
		कुल 2 किता	2.940	0.720
52	महेंद्रसिंह पिता दरियावसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	37/3/5	0.900	0.450
		23/6	2.040	0.160
		कुल 2 किता	2.940	0.610
53	संदीप कुमार पिता दरियावसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37/3/6	0.900	0.685
		कुल 1 किता	0.900	0.685
54	मोनिका पति चरणसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	40/1/3	0.186	0.126
		233/1	1.075	0.175
		278/3	2.846	0.030
		320/2/2/1	1.000	1.000
		320/4/1	0.812	0.812
		350/320/3	1.000	1.000
		कुल 6 किता	6.919	3.143
55	निशा पत्नी कालुसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	40/2	0.557	0.367
		235	0.923	0.070
		कुल 2 किता	1.480	0.437
56	दरयावसिंह पिता मेहताबसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	23/2	3.098	0.050
		कुल 1 किता	3.098	0.050
57	लाडवाई पत्नी प्रेमसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/2	2.807	0.450
		कुल 1 किता	2.807	0.450

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
58	रामचरण प्रकाश रतन रमेश पिता धीसा हजारी पिता धुम्हा जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	381/188	0.329	0.329
		कुल 1 किता	<b>0.329</b>	<b>0.329</b>
59	बनेसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	187/1/1	1.012	0.180
		कुल 1 किता	<b>1.012</b>	<b>0.180</b>
60	रोडजी पिता हरिसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	254/1	0.770	0.280
		कुल 1 किता	<b>0.770</b>	<b>0.280</b>
61	लक्ष्मणसिंह, प्रेमसिंह, विष्णुसिंह, भारतसिंह, चैनसिंह पिता नारानसिंह, बादामबाई बेवा नारानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221 229/2 254/2 276/2 275/1 277/1 353/322 380/322 332/1/4	0.152 0.253 0.874 1.731 0.392 0.595 0.582 0.126 0.759	0.020 0.010 0.300 0.160 0.060 0.030 0.582 0.126 0.060
		कुल 9 किता	<b>5.464</b>	<b>1.348</b>
62	लक्ष्मणसिंह पिता नारानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	329/2	1.012	1.012
		कुल 1 किता	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
63	विजयसिंह पिता फूलसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	275/2	0.379	0.060
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.060</b>
64	शेतानबाई पति दीरमसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	255/1/1	0.578	0.120
		कुल 1 किता	<b>0.578</b>	<b>0.120</b>
65	रामकैलाश पिता फूलसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	255/2	1.157	0.130
		कुल 1 किता	<b>1.157</b>	<b>0.130</b>
66	धापू बाई पति बीरम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	255/1/2	0.579	0.150
		कुल 1 किता	<b>0.579</b>	<b>0.150</b>
67	रामसिंह पिता छीतर चोतीश पैसे करणसिंह पिता छीतर छ्याछ्ठ पैसे जाति लोदी पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	241	0.683	0.040
		कुल 1 किता	<b>0.683</b>	<b>0.040</b>
68	बनेसिंह पिता रामलाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	242/5/3	0.422	0.080
		कुल 1 किता	<b>0.422</b>	<b>0.080</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकवा (हेक्टर में)	प्रभावित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
69	छोटेलाल पिता रामलाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	242/5/2	0.421	0.152
		कुल 1 किता	<b>0.421</b>	<b>0.152</b>
70	हिन्दूसिंह पिता रामलाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	242/5/1	0.422	0.070
		कुल 1 किता	<b>0.422</b>	<b>0.070</b>
71	रतनबाई पत्नी रामसिंह जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	190/2 191 192 252/2 228/3 228/5 कुल 6 किता	0.253 0.089 0.152 0.822 0.759 0.443 <b>2.518</b>	0.253 0.089 0.035 0.160 0.759 0.443 <b>1.739</b>
72	मुरारी पिता देवीलाल जाति जोशी पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	248/1 249/1 कुल 2 किता	0.316 0.596 <b>0.912</b>	0.205 0.030 <b>0.235</b>
73	रमेश गिर पिता अमृत गिर हि. 1/4 भाग, कमल गिर पिता अमृत गिर हि. 1/4 भाग, जगदीश गिर पिता अमृत गिर हि. 1/4 भाग, धापूबाई बेवा अमृत गिर हि 1/4 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी	229/1 247/1 कुल 2 किता	0.310 0.734 <b>1.044</b>	0.050 0.080 <b>0.130</b>
74	सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	246/2 213/3 212/2 कुल 3 किता	0.126 0.316 0.253 <b>0.695</b>	0.070 0.100 0.200 <b>0.370</b>
75	हीरालाल पिता पदमजी जाति सौंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	213/1/2 213/2 कुल 2 किता	0.158 0.316 <b>0.474</b>	0.020 0.090 <b>0.110</b>
76	शिवसिंह पिता हीरालाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	213/4/1 20/2/2 332/4/5 कुल 3 किता	0.151 0.101 0.506 <b>0.758</b>	0.040 0.040 0.326 <b>0.406</b>
77	अमृतलाल पिता हीलाल जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	213/4/2 332/4/4 20/2/1 कुल 3 किता	0.165 0.506 0.101 <b>0.772</b>	0.050 0.320 0.075 <b>0.445</b>
78	घीसालाल पिता प्रभू जाति बसोड पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	212/1 71/1/1 कुल 2 किता	0.898 0.379 <b>1.277</b>	0.898 0.170 <b>1.068</b>
79	कैलाश गिर पिता बापू गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	247/2 229/3 कुल 2 किता	0.734 0.310 <b>1.044</b>	0.190 0.160 <b>0.350</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
80	ललित कुमार पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	190/1/1	0.156	0.156
		322/2/1	0.693	0.250
		322/4	0.506	0.506
		332/1/2/6	0.140	0.140
		कुल 4 किता	<b>1.495</b>	<b>1.052</b>
81	माधोसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	190/3/1	0.127	0.127
		384/311	0.405	0.100
		कुल 2 किता	<b>0.532</b>	<b>0.227</b>
82	सुरेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह हि. 1/2 भाग, महेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	190/3/2	0.126	0.126
		332/6/1/2	1.385	0.460
		कुल 2 किता	<b>1.511</b>	<b>0.586</b>
83	गोपालसिंह हिन्दुसिंह कमलसिंह जसवंतसिंह पिता सरदारसिंह खुशाल कंवर पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	51	0.202	0.080
		50	0.013	0.013
		193/1	0.051	0.030
		कुल 3 किता	<b>0.266</b>	<b>0.123</b>
84	देवेन्द्रसिंह पिता सरजनसिंह हि. 1/4 भाग, जगदीशसिंह पिता सरजनसिंह हि. 1/4 भाग, सुरेन्द्रसिंह पिता सरजनसिंह हि. 1/4 भाग, कमलाकंवर बेवा सरजनसिंह हि. 1/4 भाग, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/1	0.114	0.040
		193/2	0.031	0.030
		222	0.177	0.050
		कुल 3 किता	<b>0.322</b>	<b>0.120</b>
85	जसवंतसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	52/2	0.253	0.070
		कुल 1 किता	<b>0.253</b>	<b>0.070</b>
86	आजादसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/4/2	1.180	0.410
		कुल 1 किता	<b>1.180</b>	<b>0.410</b>
87	लक्ष्मणसिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/2	0.114	0.030
		193/3	0.032	0.020
		कुल 2 किता	<b>0.146</b>	<b>0.050</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
88	शिवनारायण जगदीश पिता नन्हूलाल हि. 67 / 100 भाग, सुन्दरबाई बेवा नन्हूलाल हि. 33 / 100 भाग, जाति भोई पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	49/1	0.152	0.065
		कुल 1 किता	<b>0.152</b>	<b>0.065</b>
89	भवरलाल, बापूसिंह, आजादसिंह, इन्दरसिंह, पेपकुंवर, मानकुंवर, सजनकुंवर, बाईसहाब पिता मोतीसिंह, मु० लाडकुंवर बेवा मोतीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	224	0.164	0.030
		225/2	0.253	0.253
		कुल 2 किता	<b>0.417</b>	<b>0.283</b>
90	विक्रमसिंह पिता भवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	218	0.304	0.100
		कुल 1 किता	<b>0.304</b>	<b>0.100</b>
91	कुमेरसिंह पिता प्रयागसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	217/1 374/311 344/228 228/8/2	0.262 0.101 0.557 1.264	0.013 0.020 0.540 0.365
		कुल 4 किता	<b>2.184</b>	<b>0.938</b>
92	राजनसिंह पिता नरभेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1 226/2/2	0.304 0.076	0.020 0.020
		कुल 2 किता	<b>0.380</b>	<b>0.040</b>
93	अर्जुनसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	226/2/1	0.379	0.340
		कुल 1 किता	<b>0.379</b>	<b>0.340</b>
94	हरिसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	226/1/2 228/9/1	0.637 0.843	0.517 0.603
		कुल 2 किता	<b>1.480</b>	<b>1.120</b>
95	रामसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सेमलापार ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	226/1/3 228/9/3	0.637 0.843	0.456 0.333
		कुल 2 किता	<b>1.480</b>	<b>0.789</b>
96	भारतसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	226/1/1 228/9/2	0.636 0.843	0.626 0.553
		कुल 2 किता	<b>1.479</b>	<b>1.179</b>
97	विजयसिंह पिता नाथूलाल जाति सोध्या पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	4/2/1	1.562	0.130
		कुल 1 किता	<b>1.562</b>	<b>0.130</b>
98	मोतीसिंह पिता छत्रसाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	225/1/1	0.759	0.709
		कुल 1 किता	<b>0.759</b>	<b>0.709</b>

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्व नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
99	फूलकुंवर पति निर्भय शांतिकुंवर पति अर्जुनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	225/1/1/1	1.489	1.489
		कुल 1 किता	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
100	हिन्दुसिंह पिता सरदार जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/1/2	0.588	0.370
		228/2/2	0.126	0.126
		कुल 2 किता	<b>0.714</b>	<b>0.496</b>
101	मूलकंवर पल्नी गोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/1/1	0.588	0.350
		कुल 1 किता	<b>0.588</b>	<b>0.350</b>
102	गोपालसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/2/1	0.506	0.506
		कुल 1 किता	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>
103	भंवरलाल पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/4/1	0.338	0.270
		345/228	0.266	0.030
		कुल 2 किता	<b>0.604</b>	<b>0.300</b>
104	बापूसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/7/1	0.903	0.480
		350/320/2	0.568	0.568
		कुल 2 किता	<b>1.471</b>	<b>1.048</b>
105	इन्दरसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	228/7/2	0.867	0.350
		332/2	1.265	0.865
		कुल 2 किता	<b>2.132</b>	<b>1.215</b>
106	प्रेमसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	329/1/2	2.023	1.713
		कुल 1 किता	<b>2.023</b>	<b>1.713</b>
107	करनसिंह पिता कालू जाति सौंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	329/3/1	0.759	0.689
		332/3/1	0.590	0.490
		कुल 2 किता	<b>1.349</b>	<b>1.179</b>
108	प्रभुलाल पिता कालूराम जाति सौंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	329/3/2	0.759	0.679
		332/3/2	0.590	0.370
		कुल 2 किता	<b>1.349</b>	<b>1.049</b>
109	रामसिंह पिता कालू जाति सौंदिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	329/3/3	0.758	0.679
		332/3/3	0.590	0.300
		कुल 2 किता	<b>1.348</b>	<b>0.979</b>
110	संतोषबाई पति कमलसिंह जाति सौंदिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	322/2/2	0.483	0.200
		322/3/2	0.226	0.196
		322/5/1	0.698	0.533
		354/328	0.468	0.100
		373/329	0.101	0.101
		332/1/2/4	0.141	0.141
		कुल 6 किता	<b>2.117</b>	<b>1.271</b>

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
111	शिवनारायण पिता देवीसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	372/322	0.405	0.285
		320/3	0.126	0.126
		320/5	0.759	0.759
		332/1/2/5	0.140	0.140
		कुल 4 किता	1.430	1.310
112	फूलसिंह पिता मोती जाति बृजा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	350/320/1	0.204	0.204
		320/2/1	0.212	0.212
		349/320/1	0.319	0.319
		कुल 3 किता	0.735	0.735
113	कर्हैया पिता मुंशी जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/1/3	1.012	0.080
		कुल 1 किता	1.012	0.080
114	बलवन्त सिंह पिता हीरालाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	332/4/1	0.506	0.400
		कुल 1 किता	0.506	0.400
115	सूरजसिंह पिता हीरालाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/4/2	0.505	0.330
		20/2/4	0.203	0.060
		कुल 2 किता	0.708	0.390
116	पवन पिता रोडजी जाति सौंदया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/4/3	0.506	0.200
		कुल 1 किता	0.506	0.200
117	माधोसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/6/1/1	0.638	0.480
		कुल 1 किता	0.638	0.480
118	रोडजी पिता हीरालाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	20/2/3	0.101	0.040
		कुल 1 किता	0.101	0.040
	कुलयोग :—	कुल 250 किता	161.200	82.934

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4022—भू—अर्जन—2024

राजगढ़, दिनांक 16 मई 2024

**—अनुसूची—**

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पीपलहेला में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**— अनुसूची (1) :-**

तहसील : व्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव, ग्राम:- पीपलहेला

सं. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेएमें)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम— पीपलहेला की भूमि की आवश्यकता।	30.892	6.071

**अनुसूची-(2)**

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्व नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ नि.ग्रा. भू.	100/1/1	0.524	0.030
		103/4/2	0.003	0.003
		102/6/2	0.345	0.016
		101/4	0.050	0.050
योग:-		4	0.922	0.099
2	भागीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.भू.	100/2/1	0.065	0.025
		102/3/2	0.062	0.040
		103/1/2	0.011	0.005
		104/1/2	0.143	0.039
योग:-		4	0.281	0.109

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2 कमलसिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	3	4 100/3/1 0.044 103/2/2 0.031 101/3/2 0.072	5 0.044 0.009 0.020
3	योग:-	3	0.147	0.073
4	घीसालाल पिता भागचन्द हि. 1/4 पे., सरेश पि. भागचन्द हि. 1/4 पे., सनीता पि. भागचन्द हि. 1/4 पे., देवबाई बेवा भागचन्द हि. 1/4 पे., भाग जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	103/3/1 104/4	0.038 0.184	0.027 0.020
5	योग:-	2	0.222	0.047
5	प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	104/3/2	0.043	0.038
6	योग:-	1	0.043	0.038
6	केशरसिंह पिता गिरधारी जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	105/2/1	1.919	0.141
7	योग:-	1	1.919	0.141
7	भंवरीबाई पति भरतसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	108/1/2 109/1/2/2/2 109/1/2/4	0.091 0.039 0.200	0.029 0.039 0.010
8	योग:-	1	0.330	0.078
8	नन्दलाल पि. हरिप्रसाद हि.37 पे., पुरुषोत्तम पि. अमृतलाल ,कमलबाई पुत्री अमृतलाल, मांगीबाई हि. 57 पे., जाति सुतार , घीसालाल पि. बालकिशन हि. 6 पे., जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	109/1/2/1/2 109/1/2/6/2 110/1/1	0.009 0.035 0.343	0.009 0.035 0.045
9	योग:-	1	0.387	0.089
9	दुर्गाप्रसाद पिता गंगाधर जाति सुतार नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	109/1/2/3/1 109/2/1 110/2/1	0.004 0.045 0.012	0.004 0.035 0.007
10	योग:-	1	0.061	0.046
10	मुंशीबाई पति सरजनसिंह जाति सुतार नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	109/1/2/5/1	0.203	0.062
11	योग:-	1	0.203	0.062
11	गीताबाई पुत्री हजारीलाल हि. 33 पे., रामचन्द्र, दुर्गाप्रसाद पि. गंगाधर हि. 33पे., रामभरोस पि. रामप्रताप हि. 8 पे. जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	111/2	2.208	0.040
	योग:-	1	2.208	0.040

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
12	हीरालाल पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	148/1/4/1 122/1/1/2	0.065 0.092	0.014 0.017
	योग:-	2	0.157	0.031
13	शंकरलाल पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	122/1/2/1 148/1/2/2 148/1/3/2	0.129 0.146 0.136	0.010 0.025 0.045
	योग:-	3	0.411	0.080
14	शांतिबाई बैवा मांगीलाल , सोहन पिता मांगीलाल, सुनील पिता मांगीलाल, होकम पिता मांगीलाल , सुगनबाई पुत्री मांगीलाल , मथरीबाई पुत्री मांगीलाल, मंजूबाई पुत्री मांगीलाल, ममताबाई पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.भू.	124/1/2	0.163	0.013
	योग:-	1	0.163	0.013
15	लखमीचंद पिता खेमचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	125/1/1	0.332	0.085
	योग:-	1	0.332	0.085
16	पकज पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	125/2/1 125/2/3	0.064 0.020	0.049 0.020
	योग:-	2	0.084	0.069
17	बालकिशन पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. बड़ा कुआ भू.स्वा.)	125/3/2 151/1/1	0.025 0.173	0.013 0.016
	योग:-	2	0.198	0.029
18	बालकिशन पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) ग्वाड़ी वाले	1028/2/2 1029/2/2	0.119 0.030	0.113 0.026
	योग:-	2	0.149	0.139
19	गुलाबचन्द पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	125/4/2 808/4	0.037 0.232	0.016 0.005
	योग:-	2	0.269	0.021
20	रामनारायण पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	125/5/2	0.062	0.010
	योग:-	2	0.062	0.010
21	दोलतराम पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	125/6/2 152/2/2 808/6	0.081 0.090 0.281	0.009 0.011 0.005
	योग:-	3	0.452	0.025

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकमा (हे.मे)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे)
1	2	3	4	5
22	भगवतीबाई पति बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, चंद्रशेखर पि. बद्रीलाल हि. 1/3 भाग, नाथू पि. धीसालाल हि. 1/3. जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	127/1 127/3	0.600 0.119	0.067 0.036
	योग:-	1	0.719	0.103
23	धीसा पिता ऊकार जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	128/1/2	0.115	0.033
	योग:-	1	0.115	0.033
24	रामभरोसा पि. हजारीलाल हि. 50पे., गुलाबबाई बेवा हजारीलाल हि. 50पे., जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	129/1/1/3	0.250	0.114
	योग:-	1	0.250	0.114
25	प्रभलाल पि. हजारीलाल हि. 50पे., गुलाबबाई बेवा हजारीलाल हि. 50पे., जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	129/1/2/2	0.598	0.115
	योग:-	1	0.598	0.115
26	रामचन्द्र पिता श्रीलाल जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	149/1/2	0.232	0.026
	योग:-	1	0.232	0.026
27	पूनमचंद पिता जयसिंह जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	149/2/1/1	0.083	0.070
	योग:-	1	0.083	0.070
28	कैलाशनारायण पिता जयसिंह जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	149/2/2/2	0.197	0.036
	योग:-	1	0.197	0.036
29	कमलसिंह पिता खेमचन्द जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	151/2/1	0.268	0.011
	योग:-	1	0.268	0.011
30	जगदीश पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	151/4/1	0.407	0.039
	योग:-	1	0.407	0.039
31	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.गा.( भू.स्वा.)	792/1/3/2	0.106	0.019
	योग:-	1	0.106	0.019
32	सुन्दरबाई बैवा रामनारायण, अरुण, रामविलास, रिन्कुबाई, सीमाबाई पिता रामनारायण जाति धाकड़ (फौती नामातंरण से प्रविष्टी दर्ज)	792/1/4/2	0.081	0.014
	योग:-	1	0.081	0.014

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
33	फूलसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	793/2	0.169	0.061
34	सुरेन्द्रकुमार पिता फूलसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	794/2	0.764	0.097
35	मनीष पिता बालकिशन जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	796/1/2	0.025	0.022
36	रामचन्द्र पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1040/4/2 796/2/1/2 1040/4/1/2 1040/3/1/2	0.072 0.032 0.071 0.072	0.010 0.032 0.036 0.072
37	रामकरण पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	796/2/2/2 1040/3/2/2	0.032 0.073	0.032 0.038
38	राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	798/3/2/2/2	0.213	0.031
39	रमेश, राजेश, रोहित पिता मथरालाल नि.ग्रा.भू. (फौती नामांतरण से प्रविष्टी दर्ज) योग:-	805/2/2 803/1/2	0.140 0.191	0.015 0.089
40	महेशकुमार पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	803/2/2	0.304	0.094
41	जागेश्वर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	803/3/2 804/1/2 805/3/2	0.384 0.080 0.457	0.011 0.039 0.036
42	रमेश पिता मथरालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	804/2/2	0.240	0.022

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)
1	2	3	4	5
43	शिवजी पि.गिरधारी हि. 50पे., गोताबाई पिता गिरधारी हि. 50पे. जाति चमार नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	806/2	0.234	0.031
	योग:-	1	0.234	0.031
44	रामनारायण पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	808/5/1	0.036	0.036
	योग:-	1	0.036	0.036
45	मांगीलाल, पुरालाल, होकमसिंह पि. रामबगस, उमरावसिंह, गोरधन काशीबाई पि. रामबगस, डालूबाई पि. रामबगस, गोविन्द पि. लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1028/3/2	0.092	0.029
	योग:-	1	0.092	0.029
46	सिद्धनाथ, शंकरलाल, मु. लीलाबाई बेवा कैलाशनारायण, प्रीयंका, हिमांशी पि. कैलाशनारायण, अगवर्थसिंह पि. कंवरलाल, मु. भंवरीबाई बेवा कंवरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1028/4/2	0.147	0.052
	योग:-	1	0.147	0.052
47	धुरीलाल पि. दोलतराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1029/5/2	0.010	0.010
		1028/5	0.154	0.005
	योग:-	2	0.164	0.015
48	रंगलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/1/2	0.091	0.025
		1041/2	0.201	0.059
	योग:-	2	0.292	0.084
49	रामसिंह पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/2/2	0.030	0.021
	योग:-	1	0.030	0.021
50	रामचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/3/2	0.070	0.026
	योग:-	1	0.070	0.026
51	बाबू पिता माधूलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1030/4/2	0.019	0.019
	योग:-	1	0.019	0.019
52	हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/1/1/2	0.022	0.018
	योग:-	1	0.022	0.018
53	दरियावसिंह पिता शंकरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/1/2/2	0.035	0.028
	योग:-	1	0.035	0.028
54	रामचन्द्र पिता शंकरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.(भू.स्वा.)	1032/1/3/2	0.149	0.031
	योग:-	1	0.149	0.031

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
55	प्रेमसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1032/2/2	0.221	0.219
56	खेमचन्द्र पिता मदनलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1033/1	1.104	0.083
57	लीलाबाई पति शिवनारायण जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1038/1/1	0.273	0.070
58	गिरवर, नंदलाल, मनोहर, रामदयाल, संजना, रंजना पिता मानसिंह गीताबाई बेवा मानसिंह नि.ग्रा.भू. (फौती नामतांरण से संशोधित प्रतिष्ठी दर्ज) योग:-	1040/1/2	0.005	0.005
59	प्रेमसिंह पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1040/2/1/2	0.009	0.009
60	रामबगस, दोलतराम, कंवरलाल, लछमन पि. देवचन्द्र, हि. 25 पे., रामनारायण, मोती पि. गंगाधर, मु. भुली बेवा गंगाधर हि. 25 पे., भागीरथ, बापूलाल, बर्दीलाल, रामलाल, रामप्रसाद, पि. जगन्नाथ, हि. 8 पे., गोपीलाल, हरीगम पि. हजारी हि. 17 पे., पन्नलाल, शिवलाल, श्रीराम, भागमल पिता चिमना हि. 25 पे. जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1050/2	0.707	0.020
61	मांगीलाल पि. बलदेव, हि. 1/6 भाग, विजयसिंह पि. बलदेव, हि. 1/6 भाग, शांतिबाई पुत्री बलदेव, हि. 1/6 भाग, दरियावबाई पुत्री बलदेव, हि. 1/6 भाग राजबाई पुत्री बलदेव, हि. 1/6 भाग, पार्वतीबाई बेवा पप्पू गोपाल पि. पप्पू ना. बा. कुमकुम पि. पप्पू सर. माता पार्वतीबाई बेवा पप्पू हि. 1/6 भाग जाति राव, नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1097/2 1100/1/3/1 1100/1/5/1 1101/1/2 1102/1/2 1102/4/2 1103/1/2	0.081 0.015 0.081 0.005 0.261 0.027 0.104	0.071 0.015 0.041 0.005 0.007 0.027 0.084
		7	0.574	0.250

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
62	माधु, ओमप्रकाश, त्रिलोक, विष्णु, पुष्पाबाई, बबलू पिता अमरसिंह, नाबा, आर्यन पिता जितेन्द्र, संतोषबाई बैवा जितेन्द्र जाति राव पता नि.ग्रा.भू.	1100/1/4/2	0.025	0.025
		1101/2/2	0.294	0.080
		1102/2/2	0.268	0.238
		1311/1098/1/2	0.026	0.008
		1099/1/1/2	0.102	0.069
		1313/1098/1/2	0.025	0.015
		1099/1/2	0.234	0.050
योग:-		7	0.974	0.485
63	गीताबाई पति गंगाधर जाति धाकड नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1103/2/1/2	0.191	0.088
		1103/2/3/2	0.100	0.018
योग:-		2	0.291	0.106
64	मथरालाल पिता गिरधारी जाति धाकड नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1181/1/2	0.999	0.059
योग:-		1	0.999	0.059
65	सुनील पिता चुन्नीलाल जाति धाकड नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1181/2/2	0.633	0.078
योग:-		1	0.633	0.078
66	रमाबाई वर्मा पति बीरमसिंह जाति चमार	1182/3/1/2/2	0.234	0.014
	राधाबाई वर्मा पति बीरमलाल वर्मा	1182/3/1/2/3	0.235	0.014
योग:-		2	0.469	0.028
67	शिव पिता मनोराम जाति धाकड नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1183/1/3	0.068	0.068
		1184/1/2	0.076	0.076
		1185/2/2	0.218	0.194
योग:-		3	0.362	0.338
68	बापूलाल, बालकिशन ओमप्रकाश पिता भागीरथ, संतोषबाई पुत्री भागीरथ जाति चमार रामबाबू दुर्गप्रसाद विलपबाई संजुबाई पिता शिवलाल जाति चमार	1196/2	0.390	0.048
योग:-		1	0.390	0.048
69	बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड नि.ग्रा. ( भू.स्वा.)	1199/1/1	0.092	0.036
योग:-		1	0.092	0.036

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
70	कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1199/2/1	0.599	0.051
71	रामस्वरूप, लीलाबाई, पि. प्रेमनारायण हि. 50 पे. , चन्द्रकलाबाई देवा मोहनसिंह, सीमाबाई बबलीबाई, कविताबाई पुत्रिया मोहनसिंह हि. 50 पे. जाति धाकड़ नि. ग्रा. ( भू.स्वा.) योग:-	800/1/1	0.452	0.074
72	राधेश्याम पिता ईश्वर जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	150/1/3/2	0.326	0.049
73	पुरबोत्तम पिता जसा हि. 1/2 भाग धीसाबाई पिता जसा हि. 1/2 भाग, जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	150/2/2	0.379	0.092
74	लक्ष्मीनारायण पिता जसा हि. 1/2 भाग कंचनबाई पिता जसा हि. 1/2 भाग, जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	150/3/1 150/3/3	0.151 0.030	0.044 0.020
75	मोहन पिता रामबगस जाति धाकड़ पता नि.ग्रा.भू. योग:-	1039/2/1	0.100	0.007
76	लक्ष्मीचन्द बने सिंह फुलसिंह पिता काशीराम पुराबाई , जसोदा बाई , सुमित्रा बाई पुत्री काशीराम विकास पुत्र रामसिंह माँगीबाई देवा रामसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1039/3/1	0.063	0.033
77	चम्पा बाई देवीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	1039/1/2	0.010	0.010
78	फूलसिंह पिता नंदराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	798/4/2/2	0.120	0.027
79	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.) योग:-	798/5/1/1/2	0.020	0.020

संख्या	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकमा (हे.मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हे.मे.)
1	2	3	4	5
80	गिरधारी पिता पुन्य जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	798/5/2/2	0.169	0.019
	योग:-	1	0.169	0.019
81	देवीसिंह पिता गंगाधर जाति चमार नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1197/1/1/1/1 1197/2/2 1198/1/2 1182/1,1182/2 1182/3/1/1 1095 1198/3	0.159 0.073 0.004 0.822 0.138 0.329 0.152	0.155 0.023 0.004 0.112 0.008 0.009 0.010
	योग:-	7	1.677	0.321
82	ओमप्रकाश बापूलाल पिता भागीरथ जाति चमार नि.ग्रा.भू.	1197/1/1/1/2	0.116	0.055
	योग:-	1	0.116	0.055
83	रामस्वरूप, लक्ष्मीनारायण, कमलाबाई , राधाबाई पुत्री शिवलाल, हि. 1/2 राधेश्याम, अशोक, रमेश, भागीरथ, पंकज, रेखाबाई पि. हजारीलाल, कलाबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/2 जाति राव नि. ग्रा. ( भू.स्वा.)	1103/2/2	0.126	0.010
	योग:-	1	0.126	0.010
84	मोहन पिता बलराम जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1105/1/3	0.112	0.050
	योग:-	1	0.112	0.050
85	विजयसिंह, प्रदीप, पिता मोहनसिंह हि. 1/2 पवित्राबाई पति रामचन्द्र हि. 1/2 भाग, जाति चमार नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	802/1/1	0.172	0.010
	योग:-	1	0.172	0.010
86	द्रोपतीबाई पति शिवनारायण जाति ब्राह्मण नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	800/1/2	0.732	0.030
	योग:-	1	0.732	0.030
87	सुनील पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	1202/5	0.126	0.026
	योग:-	1	0.126	0.026
88	कृष्णवल्लभ पिता ईश्वर जाति धाकड़ नि.ग्रा.( भू.स्वा.)	150/1/2	0.358	0.025
	योग:-	1	0.358	0.025

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.253</b>	<b>0.030</b>
89	प्रेमनारायण पिता हीरालाल ,दरियावाई, लीलाबाई, कलाबाई पुत्रिया हीरालाल जाति धाकड़ पता नि.ग्रा.भू.	796/3	0.164	0.030
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.164</b>	<b>0.030</b>
90	जयसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि. ग्रा.भू.	798/5/1/2	0.080	0.015
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.080</b>	<b>0.015</b>
91	रामचन्द्र पिता देवीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.भू.	109/1/1	0.253	0.025
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.253</b>	<b>0.025</b>
92	रंगलाल पिता मनीराम जाति धाकड़	889/1	0.399	0.140
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.399</b>	<b>0.140</b>
93	रुकमाबाई बैवा अमरसिंह जाति धाकड़	795/2	0.074	0.010
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.074</b>	<b>0.010</b>
94	केशरसिंह ,हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़	1031/3	0.190	0.010
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.190</b>	<b>0.010</b>
95	जयसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि. ग्रा.भू.	792/1/2	0.126	0.003
	<b>योग:-</b>	<b>1</b>	<b>0.126</b>	<b>0.003</b>
	<b>महायोग:-</b>	<b>कुलकिता 145</b>	<b>30.892</b>	<b>6.071</b>

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 16 मई 2024

## —अनुसूची—

कमांक / ५०२५ / भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक ..... ३२/अ-४२] 2023-24 ..... चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने/नवीन अधिग्रहण हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है।

## —अनुसूची ( 1 ) :—

तहसील : व्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम:— कचनारिया

सं. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम— कचनारिया की भूमि की आवश्यकता।	3.062	0.457

## अनुसूची-(2)

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	बद्रीलाल, कालूराम, गोकलप्रसाद, बादामबाई, अजूध्याबाई आ. बापूलाल रमकूबाई बैवा बापूलाल नाबा. जगदीश पिता किशनलाल प्रेमकला लीला पुत्री किशनलाल रामबक्श आ भंवरजी, चंद्रबाई बैवा भंवरजी प्रेमनारायण पिता चंपालाल कस्तुरीबाई बैवा चंपालाल जाति दांगी पता नि.ग्रा.भू.	9	1.707	0.090
	योग:-	1	1.707	0.090
2	गायत्रीबाई बैवा रामेश्वर, प्रगती पुर्ति गरिमा नाबा पुत्रीया रामेश्वर सरमाता गायत्रीबाई बैवा रामेश्वर जाति दांगी	28/1	0.506	0.060
	योग:-	1	0.506	0.060

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
3	गोपाल बालकृष्ण पिता राधेश्याम उमाबाई बैवा राधेश्याम जाति दांगी नि.ग्रा. पड़ोनिया	31/1/1	0.200	0.180
	योग:-	1	0.200	0.180
4	रामप्रसाद पिता रोड़ीलाल जाति दांगी नि. ग्रा.पड़ोनिया	31/1/2	0.200	0.065
	योग:-	1	0.200	0.065
5	रामबाबू पिता देवीसिंह जाति दांगी पता नि.ग्रा.भू.	28/2	0.379	0.051
		30/2/1	0.070	0.011
	योग:-	2	0.449	0.062
	महायोग:-	कुलकिता 06	3.062	0.457

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4026—भू—अर्जन—2024

## —:अनुसूची:—

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील व्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू—अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## —: अनुसूची (1) :—

तहसील : व्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू—अर्जन प्रस्ताव, ग्राम:— कचनारिया

संक्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेएम)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम— कचनारिया की भूमि की आवश्यकता।	25.516	5.375

## अनुसूची—(2)

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	भूलीबाई पुत्री देवीसिंह जाति दांगी नि.ग्रा. भू	29/1/1/3	0.052	0.052
	योग:-	1	0.052	0.052
2	रामप्रसाद राधेश्याम पिता रोडीलाल	32/1/3/2	0.005	0.005
	योग:-	2	0.005	0.005
3	प्रभुलाल पिता हजारीलाल कुम्हार	47/2/2	0.067	0.017
	योग:-	1	0.067	0.017
4	श्यामबाबू जगदीश फूलसिंह पिता मिश्रीलाल जाति बृजा	49/1/2	0.563	0.048
	योग:-	1	0.563	0.048
5	घीसा पिता परसिया जाति बृजा नि.ग्रा.भू	57/1 1313	0.337 0.190	0.065 0.006
	योग:-	2	0.527	0.071

क्र.	प्रभावित कृषक / पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
6	हरिओम पिता नारायणप्रसाद जाति महाजन नि.ग्रा.भू.	60/2/2	0.156	0.073
	योग:-	1	0.156	0.073
7	मनोजकुमार अक्षयकुमार पिता बालकिशन प्रभादेवी बैवा बालकिशन जाति महाजन	588/1/1/2	0.031	0.026
	योग:-	1	0.031	0.026
8	लाइकुवर केलवा पति अविनाश जाति राजपूत	590/1/1/2	0.218	0.015
	योग:-	1	0.218	0.015
9	जितेन्द्र पुष्पा सुनीता पिता रामलाल इमरत देवी बैवा रामलाल जाति कोली नि.ग्रा.भू.	590/1/2/2	0.057	0.042
	योग:-	1	0.057	0.042
10	गिरधरगोपाल पिता शातिचन्द्र चंडक जाति महाजन नि.ग्रा.	591/1/2	0.398	0.010
	योग:-	1	0.398	0.010
11	बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्रा.	619/1	0.033	0.008
		621/1	0.034	0.008
		622/2/2	0.040	0.040
		625/1/1	0.089	0.008
		616/2	0.024	0.006
	योग:-	5	0.220	0.070
12	दसरथ पिता रामा जाति दांगी नि.ग्रा. स्वामी	618	0.417	0.014
		620	0.139	0.004
		720	0.481	0.035
	योग:-	3	1.037	0.053
13	जगदीश पिता रामप्रसाद जाति दांगी	626/3/3	0.273	0.073
	योग:-	1	0.273	0.073
14	कालूराम पिता प्यारा जाति दांगी	699/2/2	0.104	0.104
	योग:-	1	0.104	0.104
15	चंद्रलाल पिता कालूराम जाति दांगी	703/1/1/1	0.650	0.070
		1498/2	0.074	0.034
	योग:-	2	0.724	0.104

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकम	प्रभावित रकम
1	2	3	4	5
16	कालूराम पिता प्यारा शिवप्रसाद चंद्रलाल हरिओम पिता कालूराम जाति दांगी नि.ग्रा.	703/1/4/1	0.176	0.054
	योग:-	1	<b>0.176</b>	<b>0.054</b>
17	रामचरण पिता मांगीलाल जाति खाती	954/1	0.066	0.050
	योग:-	1	<b>0.066</b>	<b>0.050</b>
18	बद्रीलाल पिता धीसालाल जाति खाती	955/1	0.035	0.030
		955/3	0.248	0.055
	योग:-	2	<b>0.283</b>	<b>0.085</b>
19	गोविन्दप्रसाद पिता हजारीलाल जाति खाती नि.ग्रा.	956/1/2	0.076	0.010
		985/2/1	0.100	0.030
	योग:-	2	<b>0.176</b>	<b>0.040</b>
20	शिवनारायण पिता देवबक्ष जाति खाती	956/2/2	0.061	0.024
		965/1	0.161	0.059
		967/1	0.020	0.020
	योग:-	1	<b>0.242</b>	<b>0.103</b>
21	गोपाल,रामदास पिता जगदीश, अयोध्याबाई पति जगदीश, कैलाश, राधेश्याम, पिता रामचन्द्र जाति खाती	956/3/1	0.052	0.024
	योग:-	1	<b>0.052</b>	<b>0.024</b>
22	मुकेश पिता बापूलाल जाति खाती नि.ग्रा. भू.	957/1	0.058	0.018
		959/1	0.054	0.029
	योग:-	2	<b>0.112</b>	<b>0.047</b>
23	श्रीमति लीलाबाई पति हरिनारायण जाति खाती	958/1	0.089	0.028
	योग:-	1	<b>0.089</b>	<b>0.028</b>
24	बापूलाल पिता पन्नालाल जाति खाती	960/1	0.060	0.046
	योग:-	1	<b>0.060</b>	<b>0.046</b>
25	कमोदसिंह पिता पन्नालाल जाति खाती नि.ग्रा.	966/2	0.070	0.047
	योग:-	1	<b>0.070</b>	<b>0.047</b>
26	रामस्वरूप पिता रामप्रसाद जाति दांगी	969/1/2	0.075	0.006
	योग:-	1	<b>0.075</b>	<b>0.006</b>

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
27	दवारकाप्रसाद पिता गोपीलाल जाति खाती	975/1	0.082	0.044
	योग:-	1	0.082	0.044
28	रामगोपाल पिता ईसरलाल जाति खाती	985/1/1	0.069	0.038
	योग:-	1	0.069	0.038
29	गीताबाई बैवा प्रेमनारायण जाति खाती	1226/3/1	0.126	0.013
		1234/1	0.025	0.025
		1246/3/2	0.042	0.012
		1284/3/1	0.058	0.004
	योग:-	4	0.251	0.054
30	हरिकिशन पिता गंगाधर हि. 50 पै. कान्ताप्रसाद पिता गंगाधर हि. 50 पै.	1229/1	0.155	0.020
		1230/1	0.037	0.027
		1232/1	0.013	0.013
		1283/1	0.102	0.092
	योग:-	4	0.307	0.152
31	मांगीलाल पिता जालम जाति दांगी नि.ग	1291/2/1/1	0.480	0.094
	योग:-	1	0.480	0.094
32	देवचंद पिता बालू जाति चमार	1310/2	0.412	0.034
	योग:-	1	0.412	0.034
33	हीरालाल रामगोपाल पिता पूरालाल जाति तेली	1311/1	0.103	0.103
		1312/1	0.066	0.028
	योग:-	2	0.169	0.131
34	देवराज घनश्याम पिता बद्रीलाल सर. माता सुगनबाई पति बद्रीलाल जाति दांगी हिस्सा 34 पैसा, रामचन्द्र बद्री गंगाराम बैवा कालू गजीबाई बैवा कालू रामेश्वर दांगी दिनेश पिता जगन्नाथ जतनबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी हिस्सा 33 पैसा., कस्तूरीबाई बैवा शम्भूलाल मांगीलाल रामप्रसाद गोकुल रामगोपाल पिता शम्भूलाल रेखाबाई पुत्री शम्भूलाल जाति दांगी नि.गा.भू.	1365/1	1.904	0.139
	योग:-	1	1.904	0.139

क्र.	प्रभावित कृषक / पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकम	प्रभावित रकम
1	2	3	4	5
35	समरथबाई पति धीसालाल जाति खाती	1366/1/1	0.040	0.024
		1366/1/3	0.063	0.032
		1366/2/1/2	0.083	0.033
		1366/2/2/1	0.045	0.034
		1366/2/3/1	0.273	0.036
		1367/2/1	0.093	0.017
<b>योग:-</b>		<b>6</b>	<b>0.597</b>	<b>0.176</b>
36	ललताबाई बैवा मोतीलाल रघुनंदन नाबा पिता मोतीलाल सीमा नाबा पुत्री मोतीलाल जाति दांगी	1367/1/2/2	0.306	0.002
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.306</b>	<b>0.002</b>
37	अंकिता पिता मांगीलाल जाति खाती	1480/2	0.121	0.021
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.121</b>	<b>0.021</b>
38	रामबाबू रामभरोस शिवचरण पिता उमराव जाति खाती नि.ग्रा.	1505/1	0.491	0.079
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.491</b>	<b>0.079</b>
39	भेरुसिंह पिता भागीरथ हि. 50 पै. मोतीसिंह पिता भागीरथ हि. 50 पै. जाति खाती	1509/1	0.006	0.006
		1518/1/1	0.063	0.031
		1518/1/3	0.250	0.040
<b>योग:-</b>		<b>3</b>	<b>0.319</b>	<b>0.077</b>
40	सुगनबाई पति मोहनलाल जाति खाती	1517/1	0.217	0.088
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.217</b>	<b>0.088</b>
41	विष्णुप्रसाद पिता पन्नालाल जाति खाती	1510/1/1	0.023	0.006
		1518/2/1/1	0.211	0.068
		1518/3/1/3	0.020	0.020
<b>योग:-</b>		<b>3</b>	<b>0.254</b>	<b>0.094</b>
42	प्रेमनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती	1518/3/2/1	0.211	0.044
		1510/2	0.038	0.038
<b>योग:-</b>		<b>2</b>	<b>0.249</b>	<b>0.082</b>
43	देवीसिंह पिता जगन्नाथ धापूबाई बैवा जगन्नाथ जाति खाती	1521/1/1	0.141	0.141
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.141</b>	<b>0.141</b>

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
44	विष्णुप्रसाद पिता जगन्नाथ चंद्रबाई बैवा कन्हैयालाल जाति खाती	1521/2/1	0.146	0.036
	योग:-	1	0.146	0.036
45	लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल पारवतीबाई बैवा हजारीलाल ललताबाई बैवा मोतीलाल रघुनंदन नाबा. सीमा नाबा. पिता मोतीलाल देवराज नाबा. पवन पिता राधेश्याम पार्वती बैवा राधेश्याम जाति दांगी पता तहसील ब्यावरा	1782/702/1	1.170	0.198
	योग:-	1	1.170	0.198
46	राधेश्याम रामचरण पिता दयाराम केशरबाई बैवा दयाराम जाति खाती नि.	1855/1480/2	0.090	0.035
		1857/1498/2	0.188	0.022
	योग:-	2	0.278	0.057
47	राजाराम पिता हजारीलाल जाति खाती नि.ग्रा.	1858/1498/3	0.237	0.026
	योग:-	1	0.237	0.026
48	सुखराम पिता दुल्या कलाबाई बैवा दुल्या नाबा. संजू काना पिता प्रेमनारायण सर. माता सुशीलबाई , सुशीलबाई बैवा प्रेमनारायण जाति बृजा नि.ग्रा.	699/1/2/2	0.112	0.112
	योग:-	1	0.112	0.112
49	भंवरलाल पिता हीरालाल जाति खाती नि. ग्रा.भू.	703/2/5/2/2	0.106	0.106
	योग:-	1	0.106	0.106
50	भागीरथ पिता धीसालाल जाति खाती	1519/1/2	1.059	0.169
	योग:-	1	1.059	0.169
51	रामगोपाल पिता ईशरलाल जाति खाती	1503/3/1	0.038	0.023
	योग:-	1	0.038	0.023
52	पन्नलाल पिता नाथूलाल जाति खाती	1503/2/1	0.074	0.030
	योग:-	1	0.074	0.030
53	दरियावसिंह पिता हजारीलाल जाति खाती	1503/4/2	0.285	0.035
		1504/2	0.163	0.118
	योग:-	2	0.448	0.153

क्र.	प्रभावित कृषक / पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
54	भंवरीबाई पुत्री हीरलाल सोदरबाई बैवा हीरलाल जाति खाती	972/1	0.059	0.022
		1241/1	0.514	0.028
		1242/1	0.213	0.044
		1245/1	0.733	0.080
<b>योग:-</b>		<b>4</b>	<b>1.519</b>	<b>0.174</b>
55	महेश पिता धीसालाल जाति खाती	1234/2/2	0.016	0.011
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.016</b>	<b>0.011</b>
56	कैलाश राधेश्याम सुखराम रामबाबू पिता उमरावसिंह समरथबाई बैवा उमरावसिंह जाति खाती	1234/3/2	0.036	0.036
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.036</b>	<b>0.036</b>
57	रामबाबू विष्णुप्रसाद पिता सुखराम जाति खाती	1235/1/2	0.120	0.046
		1239/1/2	0.131	0.131
		1240/1/1	0.100	0.036
<b>योग:-</b>		<b>3</b>	<b>0.351</b>	<b>0.213</b>
58	अनोखीलाल, सीताराम पिता हरिप्रसाद जाति खाती	1240/2/1/1	0.035	0.035
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.035</b>	<b>0.035</b>
59	राजेश कुमार पिता शिवनारायण जाति तेली	56/1/1	0.606	0.016
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.606</b>	<b>0.016</b>
60	उम्मेदीबाई बैवा हीरलाल जाति ब्रजा	704	0.063	0.004
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.063</b>	<b>0.004</b>
61	कैलाशनारायण कृष्णवल्लभ जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती	1228/1	0.735	0.025
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.735</b>	<b>0.025</b>
62	रमेशचन्द्र पिता हजारीलाल जाति खाती	1508	1.151	0.010
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>1.151</b>	<b>0.010</b>
63	रोडीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी	7/1	0.342	0.080
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.342</b>	<b>0.080</b>
64	सोमनाथ पिता हजारीलाल जाति दांगी	47/1	0.494	0.010
<b>योग:-</b>		<b>1</b>	<b>0.494</b>	<b>0.010</b>

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	प्रभावित रकमा
1	2	3	4	5
65	संध्या पति रमेशचन्द्र सोनिया पति आसुतोष जाति महाजन	586/1/1/2/1	0.038	0.038
	योग:-	1	0.038	0.038
66	कालूराम पिता प्यारा जाति दांगी	698/1/2	0.215	0.060
	योग:-	1	0.215	0.060
67	देवराज नाबा. पवन पिता राधेश्याम पार्वती बैवा राधेश्याम विजयसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी	702/2	0.140	0.005
	योग:-	1	0.140	0.005
68	हेमलता पति डा. राजकुमार	703/1/3/1	0.025	0.025
		703/2/1	0.037	0.002
	योग:-	2	0.062	0.027
69	कालूराम पिता प्यारा शिवप्रसाद चंद्रलाल हरिओम पिता कालूराम जाति दांगी नि.ग्रा.	703/2/3	0.088	0.077
	योग:-	1	0.088	0.077
70	बद्रीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा.	719	0.038	0.024
	योग:-	1	0.038	0.024
71	रामबाबू विष्णुप्रसाद पिता सुखराम जाति खाती	1250	0.228	0.020
	योग:-	1	0.228	0.020
72	शिवनारायण पिता देवचंद जाति बृजा	1291/2/3	0.253	0.030
	योग:-	1	0.253	0.030
73	धापूबाई बैवा भारतसिंह मुकेश पिता भारतसिंह जाति बृजा पता नि.ग्रा.भू.	1291/2/4	0.253	0.253
	योग:-	1	0.253	0.253
74	पण्ठु पिता गंगाराम हि. 50 पै. नाबा हिमांशु सुधान्सु पिता मुन्नालाला निर्मला बैवा मुन्नालाल जाति खटीक	1367/1/1	0.354	0.010
	योग:-	1	0.354	0.010
75	बालाप्रसाद पिता गोपीलाल जाति खाती	1521/3	0.474	0.070
	योग:-	1	0.474	0.070
76	मांग्या पिता गोपीलाल जाति दांगी	1856/1481	0.228	0.020
	योग:-	1	0.228	0.020

क्र.	प्रभावित कृषक/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रक्खा	प्रभावित रक्खा
1	2	3	4	5
77	गोपाल,बालकृष्ण पिता राधेश्याम उमाबाई बैवा राधेश्याम जाति दांगी	31/3/2	0.142	0.142
	योग:-	1	0.142	0.142
78	रामप्रसाद पिता रोडीलाल जाति दांगी	31/3/1	0.141	0.141
	योग:-	1	0.141	0.141
79	मुरलीमनोहर पिता मदनलाल जाति महाजन	586/1/2/1	0.533	0.018
	योग:-	1	0.533	0.018
80	सुन्दरलाल पिता रतनलाल विमलाबाई पति सुन्दरलाल जाति बृजा	718/1/2	0.480	0.090
	योग:-	1	0.480	0.090
81	जोरावर पिता मूलचंद जाति खाती	953/2/1	0.194	0.038
	योग:-	1	0.194	0.038
82	प्रेमनारायण पिता नाथूलाल जाति खाती	1503/1	0.089	0.003
		1503/5	0.313	0.011
	योग:-	2	0.402	0.014
83	सीताराम पिता हरिप्रसाद जाति खाती	1240/2/1/2	0.035	0.035
	योग:-	1	0.035	0.035
	महायोग:-	कुलकिता 121	25.516	5.375

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) व्यावरा, जिला – राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैहर, मध्यप्रदेश

क्र. 86—भू—अर्जन—2024

मैहर, दिनांक 21 मई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क.—एक—सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन :— (म0प्र0शासन/निजी खाता)

- (क) जिला — मैहर
- (ख) तहसील — मैहर
- (ग) ग्राम — बेरमा
- (घ) क्षेत्रफल — 0.587 हेक्टेक्टर

कार्यपालन यंत्री, पुल निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.) के द्वारा ग्राम— बेरमा प.ह.न0 31 तहसील मैहर जिला मैहर में भदनपुर मैहर मार्ग लेवल क्रासिंग क्रमांक 375 कि.मी. 1132/8-9 में कटनी से मानिकपुर रेल लाइन सेक्सन में रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के भू—अर्जन ग्राम:- बेरमा तहसील— मैहर जिला मैहर की निजी भूमि रकवा 0.587 हेक्टेक्टर भूमि का भू—अर्जन हेतु म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—19 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है, विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	कार्य	घज क्र.	पत्र क्र./दिनांक	सार	अभिमत
1.	परियोजना	01	क्रमांक 1471 / तक / 2023-24 रीवा दिनांक 30.11.2023	भदनपुर मैहर मार्ग लेवल क्रासिंग क्रमांक 375 कि.मी. 1132/8-9 में कटनी से मानिकपुर रेल लाइन सेक्सन में रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का भू—अर्जन	प्रमाणित है
2.	खसरा / नवशा	02	संलग्न है।	संलग्न है।	संलग्न है।
3.	प्रस्ताव धारा—11	03	संलग्न है।		
4.	फील्ड रिपोर्ट	04	संलग्न है।		
5.	एस0डी0एम0 / विभाग का प्रस्ताव				
6.	धारा—19 की अधिसूचना पर हस्ताक्षर	05	यथानुसार	उचित	हां हस्ताक्षर किये जाने योग्य

### प्रभावित आराजियों का विवरण

क्रमांक	भू—स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा न0	आर्जित रकवा हेक्टेक्टर	अर्जित रकवा(हेक्टेक्टर)
01	02	03	04	05
01	दुलीचंद्र पिता रामस्वरूप कोल सा0 खेरवाकला	2662	0.024	0.587 हेक्टेक्टर
02	पुरुषोत्तम पिता सुदर्शन प्रसाद कुमारी सा0 खेरवाकला	2663	0.036	
03	पुरुषोत्तम पिता सुदर्शन प्रसाद कुमारी सा0 खेरवाकला	2664	0.043	

04	शंकर प्रसाद पिता महादेव नाई सा० बेरमा	2666	0.002	
05	शंकर प्रसाद पिता महादेव नाई सा० बेरमा	2667	0.035	
06	दुलीचंद्र पिता रामस्वरूप कोल सा० खेरवाकला	2668	0.009	
07	संतोष कुमार पिता रामखेलावन ब्रा० सा० खेरवाकला	2672	0.090	
08	राजेन्द्र प्रसाद पिता रामगोपाल ब्रा० सा० बेरमा	2671	0.050	
09	न्दकिशोर पिता गया प्रसाद अग्रवाल सा० मैहर	2676	0.050	
10	बृन्दावन पिता रामगोपाल ब्रा० सा० बेरमा	2677	0.020	
11	लुन्दा पिता चुनवादा तेली सा० बेरमा	2678 / 2 / 1 / 1	0.026	
12	दिनेश पिता रामदीन तेरसी, सुकवरिया पुत्री रामदीन कुर्मी सा० खेरवाकला	2761	0.060	
13	दिनेश पिता रामदीन तेरसी, सुकवरिया पुत्री रामदीन कुर्मी सा० खेरवाकला	2762	0.040	
14	रामनरेश पिता जगदीश प्रसाद ब्रा० सा० खेरवाकला	2768	0.050	
15	रामनरेश पिता जगदीश प्रसाद ब्रा० सा० खेरवाकला	2769	0.002	
16	महियादीन, रामानंद, रामजी पिता दमरी कुर्मी सा० खेरवाकला	2771	0.050	

क्र. 87—भू—अर्जन—2024

चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क.—एक—सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन :— (म०प्र०शासन / निजी खाता)

- (क) जिला — मैहर
- (ख) तहसील — मैहर
- (ग) ग्राम — खेरवाकला
- (घ) क्षेत्रफल — 0.7290 हेए

**कार्यपालन यंत्री, सेतु निर्माण संभाग रीवा (म.प्र.) के द्वारा भदनपुर मैहर मार्ग लेवल क्रासिंग क्रमांक 375 कि.मी. 1132/8-9 में कटनी से मानिकपुर रेल लाइन सेक्सन में रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के भू-अर्जन ग्राम- खेरवाकला तहसील मैहर जिला मैहर की निजी भूमि रकवा 0.7290 हेक्टर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 15-03-2023 को किया जा को किया जाकर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 83/भू-अर्जन/2024 सतना, दिनांक 15/05/2024 को तहसीलदार तहसील मैहर को पुल निर्माण में प्रभावित होने वाली आराजियों का मौके से नक्शा तरमीम एवं बटांकन उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र भेजा गया जिसमें तहसीलदार तहसील मैहर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 14/तह./2024 मैहर, दि 20.05.2024 कं नक्शा तरमीम की सूची उपलब्ध कराई गई। कार्यपालन यंत्री पुल निर्माण संभाग रीवा द्वारा अपने पत्र 1471/तक/2023-24 रीवा दिनांक 30.11.2023 द्वारा धारा-19 का प्रस्ताव निजी भूमि का रकवा 0.7290 हेक्टर का प्रस्तुत किया गया जिसमें अर्जित होने वाली आराजियों/रकवा का विवरण निम्नानुसार है:-**

**भदनपुर मैहर मार्ग लेवल क्रासिंग क्रमांक 375 कि.मी. 1132/8-9 में कटनी से मानिकपुर रेल लाइन सेक्सन में रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हेतु धारा-19 की सूची**

क्रमांक	भू-स्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा नं	आर्जित रकवा हेक्टर	अर्जित रकवा(हेक्टर)
01	02	03	04	05
01	रामओतार पिता रामहेत कुर्मी	1	0.006	0.7290हेक्टर
02	राजेश पिता रामाधार ब्रा.	12	0.094	
03	सीमा बाई बेवा विष्णुदत्त, द्वारिका, जिले नंदा, संजू, पिता विष्णु दत्त ब्रा	13	0.063	
04	प्रकाश, कमला बाई पिता विश्वाम पतीराम होपियार पिता जवहिरा, दधरथ पि. बैसाखू भद्रदी मिराई पिता हपुवा, शनी, अर्चना, बंदना, मिदानी पिता रामपाल कोल	14	0.042	
05	संतोष कुमार पिता रामखेलावन ब्रा.	15	0.136	
06	सीता बाई बेवा विष्णु दत्त, द्वारिका, जिले नंदा, संजू, पिता विष्णुदत्त ब्रा.	16	0.073	
07	विष्णुकर मिश्रा, आषुतोष मिश्रा, पिता दिल्लाय कुमार मिश्रा मध्य तिवारी पिता विजय कुमार मिश्रा	17/2	0.074	
08	राजेन्द्र कुमार पिता रामलखन कुर्मी	22	0.042	
09	शान्ती बाई बेवा शम्भू भागवती बेवा जगतपाल, धीरेन्द्र, कमलेन्द्र, प्रियंका, सीमा, निधी पिता	23	0.073	

	जगतपाल, मार्ग बली माँ भागवती पटेल			
10	सुन्दरलाल पिता रामसनेही ब्रा.	395/1	0.063	
11	रमेश पिता सुन्दरलाल ब्रा.	395/2	0.063	

रानी बाटड, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

**क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) ::** भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड रजपुरा N 24° 25' 40.452" E 79° 54' 27.009" से N 24° 26' 37.665 E 79° 54' 24.770" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 26' 10.772" E 79° 53' 55.659" से N 24° 25' 51.563 E 79° 54' 51.374" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला— पन्ना

वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

तहसील —अमानगंज

वन परिक्षेत्र —अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	रजपुरा	रजपुरा	म.प्र. शासन वन विभाग	15/2	14.000	उत्तर — वनखण्ड अमानगंज कक्ष क्र. 1290, 1289 की सीमा लाईन पर स्थित मुनारा क्र. 16 से 18 एवं 1 तक एवं राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 1 से लेकर मुनारा क्र. 4 तक।
2				16	20.000	पूर्व — राजस्व सीमा में स्थित मुनारा क्र. 4 से 7 तक।
3				17/2	15.000	दक्षिण — राजस्व सीमा में स्थित मुनारा क्र. 7 से 12 तक।
4				18/2	18.000	पश्चिम — राजस्व सीमा में स्थित मुनारा क्र. 12 से 13 तक एवं मुनारा क्र. 13 से 14 तक वनखण्ड अमानगंज के कक्ष क्र. 1281 की सीमा एवं राजस्व सीमा में स्थित मुनारा क्र. 15 से होते हुये वनखण्ड अमानगंज के कक्ष क्रमांक 1290 की सीमा में स्थित मुनारा क्र. 16 तक।
5				19	20.000	
6				20	23.320	
7				47	20.000	
8				50	25.000	
9				51	15.010	
कुल योग:-					<b>170.330</b>	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्गित 170.330 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश प्र.क्र./0001 3/20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 23-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
  - अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
    - (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गुनौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
      - व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
      - सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Rajpura N 24° 25' 40.452" E 79° 54' 27.009" to N 24° 26' 37.665 E 79° 54' 24.770" North Latitude and N 24° 26' 10.772" E 79° 53' 55.659" to N 24° 25' 51.563 E 79° 54' 51.374" East Longitude.

#### SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Amanganj  
Forest Range -Amanganj Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rajpura	Rajpura	M.P. Govt. Forest Department	15/2	14.000	North-
2				16	20.000	Pillar no. 16 to 18 and 1 situated on the boundary line of forest block Amanganj compartment number 1290, 1289 and pillar no. 1 to 4 in revenue area.
3				17/2	15.000	
4				18/2	18.000	East - Pillar no. 4 to 7 situated in revenue boundary.
5				19	20.000	
6				20	23.320	South - Pillar no. 7 to 12 situated in revenue boundary.
7				47	20.000	
8				50	25.000	West - Pillar no. 12 to 13 situated in revenue boundary pillar no. 13 to 14 boundary of forest block Amanganj compartment number 1281 through pillar no. 15 of revenue area to pillar no. 16 situated on the boundary of forest block. Amanganj compartment no. 1290.
9				51	15.010	
				Total:-	170.330	

#### (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 170.330 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. प्र.क्र./0001 अ/20(3) वर्ष 2024-25 dated 23.04.2024 of Collector Panna.

#### 2. Details of other Reasons :- Nil

#### (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Gunour are as under:-

1. Individual Rights – There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उड़ला-ए N 24° 24' 28.866" E 79° 54' 5.906" से N 24° 24' 50.305 E 79° 54' 31.085" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 24' 30.614" E 79° 54' 0.698" से N 24° 24' 38.810 E 79° 54' 35.037" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला— पन्ना

वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

तहसील — अमानगंज

वन परिक्षेत्र — अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	उड़ला-ए	उड़ला	म.प्र. शासन वन विभाग	78	4.000	उत्तर — वनखण्ड उड़ला कक्ष क्र. 1284 की सीमा में स्थित मुनारा क्र. 1 से राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 3 तक।
2				82	13.330	पूर्व — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 3 से 11 तक। दक्षिण — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 11 से 13 तक। पश्चिम — वनखण्ड उड़ला कक्ष क्र. 1284 की सीमा में स्थित मुनारा क्र. 13 से 14 एवं 1 तक।
				कुल योग:-	17.330	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 17.330 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश प्र.क्र./0002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 23-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गुनौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Udla-A N 24° 24' 28.866" E 79° 54' 5.906" to N 24° 24' 50.305 E 79° 54' 31.085" North Latitude and N 24° 24' 30.614" E 79° 54' 0.698" to N 24° 24' 38.810 E 79° 54' 35.037" East Longitude.

#### SCHEDULE

District- Panna						Tabasil- Amanganj	
Forest Division - Panna Tiger Reserve						Forest Range -Amanganj Buffer	
S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries	
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Udla-A	Udla	M.P. Govt. Forest Department	78	4.000	North - Pillar no. 1 situated on the boundary of forest block Udla compartment no. 1284 to pillar no. 3 situated in the revenue area. East - Pillar no. 3 to 11 situated in the revenue area. South - Pillar no. 11 to 13 situated in the revenue area. West - Pillar no. 13 to 14 and 1 situated on the forest block Udla compartment no. 1284.	
2				82	13.330		
				Total:-	17.330		

#### (A) Reason for publication of Notification :-

- In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 17.330 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No .प्र.क्र./0002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 dated 23.04.2024 of Collector Panna.
- Details of other Reasons :- Nil

#### (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Gunour are as under:-

- Individual Rights** — There are no Individual rights on the said land .
- Community Rights** — There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

**क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) ::** भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उड़ला-बी N 24° 24' 25.597" E 79° 54' 1.708" से N 24° 24' 30.119 E 79° 53' 59.189" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 24' 29.582" E 79° 53' 57.309" से N 24° 24' 25.620 E 79° 54' 10.028" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

**अनुसूची****जिला— पन्ना****तहसील —अमानगंज****वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना****वन परिक्षेत्र —अमानगंज बफर**

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	उड़ला-बी	उड़ला	म.प्र. शासन वन विभाग	76	2.420	उत्तर — वनखण्ड उड़ला कक्ष क्र. 1284 की सीमा में स्थित मुनारा क्र. 2 से राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 3 तक। पूर्व — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 3 से 4 तक। दक्षिण — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 4 से 7 एवं 1 तक। पश्चिम — वनखण्ड उड़ला कक्ष क्र. 1284 की सीमा लाईन मुनारा क्र. 1 से 2 तक।
				कुल योग:-	2.420	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 2.420 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश प्रक्र. /0002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 23-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गुनौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Udma-B N 24° 24' 25.597" E 79° 54' 1.708" to N 24° 24' 30.119 E 79° 53' 59.189" North Latitude and N 24° 24' 29.582" E 79° 53' 57.309" to N 24° 24' 25.620 E 79° 54' 10.028" East Longitude.

#### SCHEDULE

##### District- Panna

##### Forest Division - Panna Tiger Reserve

##### Tahsil- Amanganj

##### Forest Range -Amanganj Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Udma-B	Udma	M.P. Govt. Forest Department	76	2.420	<p><b>North-</b> Pillar no. 2 situated on the boundary line of forest block Udma compartment no. 1284 to pillar no. 3 situated in the revenue area.</p> <p><b>East -</b> Pillar no. 3 to 4 situated in the revenue area.</p> <p><b>South -</b> Pillar no. 4 to 7 and 1 situated in the revenue area.</p> <p><b>West -</b> Boundary line of the forest block Udma compartment no. 1284 from pillar no. 1 to 2.</p>
				<b>Total:-</b>	<b>2.420</b>	

##### (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 2.420 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. प्र.क्र./0002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 dated 23.04.2024 of Collector Panna.

2. Details of other Reasons :- Nil

##### (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Gunour are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड उड़ला—सी N 24° 24' 9.367" E 79° 53' 44.809" से N 24° 24' 20.555 E 79° 53' 43.363" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 24' 9.489" E 79° 53' 30.819" से N 24° 24' 19.143 E 79° 53' 44.927" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला— पन्ना

तहसील —अमानगंज

वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र —अमानगंज बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	उड़ला—सी	उड़ला	म.प्र. शासन वन विभाग	41	7.320	उत्तर — मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक वनखण्ड उड़ला के कक्ष क्रमांक 1284 की सीमा। मुनारा क्रमांक 7 से राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्रमांक 1 एवं 2 तक। पूर्व — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 2 से 3 तक। दक्षिण — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 3 से 4 तक। पश्चिम — राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 4 से 6 तक।
				कुल योग:-	7.320	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 7.320 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश प्रक्र./0002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 दिनांक 23-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गुनौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Udia-C N 24° 24' 9.367" E 79° 53' 44.809" to N 24° 24' 20.555 E 79° 53' 43.363" North Latitude and N 24° 24' 9.489" E 79° 53' 30.819" to N 24° 24' 19.143 E 79° 53' 44.927" East Longitude.

#### SCHEDEULE

**District- Panna  
Forest Division - Panna Tiger Reserve**

**Tahsil- Amanganj  
Forest Range -Amanganj Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare s)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Udia-C	Udia	M.P. Govt. Forest Department	41	7.320	North- Boundary of the compartment number 1284 of Udia forest block from pillar no. 6 to 7. Pillar 7 to Pillar no. 1 and 2 situated in the revenue area. East - Pillar no. 2 to 3 situated in the revenue area. South - Pillar no. 3 to 4 situated in the revenue area. West - Pillar no. 4 to 7 situated in the revenue area.
				Total:-	7.320	

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 7.320 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. प्र.क्र./0002 अ/20(3) वर्ष 2024-25 dated 23.04.2024 of Collector Panna.

2. Details of other Reasons :- Nil

**(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Gunour are as under:-**

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायें। यह वनखण्ड कलकुआ-ब N 24°20'45.682" E 79°36'47.713" से N 24°21'11.339" E 79°36'54.261" उत्तर अक्षांश तथा N 24°20'59.321" E 79°37'6.477" से N 24°21'6.155" E 79°36'39.001" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला	-	दमोह	-	तहसील	- हटा
वनमण्डल	-	पत्ता टाईगर रिजर्व	-	वन परिक्षेत्र	- मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेन)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कलकुआ ब	कलकुआ	म.प्र. शासन वन विभाग	91/2	30.00	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 14 तक। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 एवं वनखण्ड कलकुआ की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 16 तक। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 17 एवं 1 तक।
				योग-	30.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 30.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./21 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
  - अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
  - सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Kalkua-B lies between N 24°20'45.682" E 79°36'47.713" to N 24°21'11.339" E 79°36'54.261" North Latitude and N 24°20'59.321" E 79°37'6.477" to N 24°21'6.155" E 79°36'39.001" East Longitude.

SCHEDULE

District —	Damoh	Tehsil. —	Hatta
Forest Division —	Panna Tiger Reserve	Forest Range —	Madiyado

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalkua-B	Kalkua	M.P.Govt. Forest Department Govt. land	91/2	30.00	<p><b>North-</b> Pillar number 1 to 3 of proposed forest block.</p> <p><b>East-</b> Pillar number 3 to 14 of proposed forest block.</p> <p><b>South-</b> Pillar number 14 of proposed forest block to Pillar number 16 on protected forest block Kalkuan.</p> <p><b>West-</b> Pillar no. 16 to 17 and 1 of proposed forest block.</p>

**(A) Reason for publication of Notification :-**

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 30.00 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No रा.प्र.क्र./21 ३/20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh.

2. Details of other Reasons :- Nil

**(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Tahsildar Tendukhea District Damoh are as under:-**

1. **Individual Rights** — There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** — There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड मनकपुरा—अ N 24° 22' 52.95" से N 24° 22' 59.83" उत्तर अक्षांश तथा E 79° 30' 23.13" से E 79° 30' 28.76" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला— दमोह

वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

तहसील —हटा

वन परिषेत्र —मड़ियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान माद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मनकपुरा—अ	मनकपुरा	म.प्र. शासन वन विभाग	175	2.42	उत्तर— संरक्षित वनखण्ड मनकपुरा के कक्ष क्र. 350 की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 1 से राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्रमांक 4 तक। पूर्व— राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्रमांक 4 से संरक्षित वनखण्ड मनकपुरा की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 9 तक। दक्षिण— मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक संरक्षित वनखण्ड मनकपुरा की सीमा। पश्चिम— मुनारा क्रमांक 10 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड मनकपुरा की सीमा।
				कुल योग:-	2.42	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्गित 2.42 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश रा.प्र.क्र./029 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

## 2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
  - सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block **Manakpura-A** lies between N 24° 22' 52.95" to N 24° 22' 59.83" North Latitude and E 79° 30' 23.13" to E 79° 30' 28.76" East Longitude.

#### SCHEDULE

**District- Damoh**  
**Forest Division - Panna Tiger Reserve**

**Tahsil- Hatta**  
**Forest Range - Madiyado**

S. N o.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Manakpura-A	Manakpura	M.P. Govt. Forest Department	175	2.42	<p><b>North-</b> Pillar no. 1 Situated in the boundary of compartment no. 350 of protected forest block Mankpura to pillar no. 4 situated in the revenue area.</p> <p><b>East -</b> Pillar no. 4 situated in the revenue area to pillar no. 9 on the boundary of protected forest block Mankpura.</p> <p><b>South -</b> Boundary of protected forest block Mankpura from pillar no. 9 to 10</p> <p><b>West -</b> Boundary of protected forest block Mankpura from pillar no. 10 to 1.</p>
				<b>Total:-</b>	<b>2.42</b>	

#### (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 2.42 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./029 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh.

#### 2. Details of other Reasons :- Nil

#### (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Tahsildar Tendukheda District Damoh are as under:-

1. **Individual Rights** — There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** — There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपवधानों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यवितयों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय—समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड बछामा—द N 24° 19' 46.99" से N 24° 20' 16.03" उत्तर अक्षांश तथा E 79° 34' 27.53" से E 79° 35' 21.94" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

## अनुसूची

जिला— दमोह

वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

तहसील —हटा

वन परिषेत्र —मड़ियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बछामा—द	बछामा	म.प्र. शासन वन विभाग	151 169/2 188/2 190	24.72 10.00 23.00 21.80	उत्तर— प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 29 तक एवं संरक्षित वनखण्ड उदयपुरा ब की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 8 तक। पूर्व— संरक्षित वनखण्ड उदयपुरा ब के मुनारा क्रमांक 8 से 7 एवं 6 तक। दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड उदयपुरा ब की सीमा पर मुनारा क्रमांक 6 से आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमांक 30 तक एवं मुनारा क्रमांक 30 से 36 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा। पश्चिम— आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 36 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक।
				कुल योग:-	79.52	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 79.52 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश रा.प्र.क्र./016 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 16-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 17 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 17 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 17<sup>th</sup> May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block **Manakpura-A** lies between N 24° 19' 46.99" to N 24° 20' 16.03" North Latitude and E 79° 34' 27.53" to E 79° 35' 21.94" East Longitude.

#### SCHEDULE

**District- Damoh**

**Forest Division - Panna Tiger Reserve**

**Tahsil- Hatta  
Forest Range - Madiyado**

S. N o.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bachhaman-D	Bachhaman	M.P. Govt. Forest Department	151 169/2 188/2 190	24.72 10.00 23.00 21.80	North- Pillar no. 1 to 29 of proposed forest block and pillar no. 8 situated on the boundary of protected forest block Udaipura-B. East - Pillar no. 8 to 7 and 1 of protected forest block Udaipura-B. South- Pillar no. 6 on the boundary of protected forest block Udaipura-B to pillar no. 30 situated on the boundary of Reserved forest block Bharkhura and boundary of the reserved forest block Bharkhura from pillar no. 30 to 36. West - Pillar no. 36 situated on the boundary of Reserved forest block Bharkhura to pillar no. 1 of proposed forest block.
				Total:-	79.52	

#### (A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 79.52 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./016 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 16.03.2024 of Collector Damoh.

2. Details of other Reasons :- Nil

#### (B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Tahsildar Tendukheda District Damoh are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.